

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2017 (चैत्र 11, 1939)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2017 (CHAITRA 11, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2017

रक्षा (एम एस)

सं. 45, दिनांक 23 जनवरी 2017—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी, 2017 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक (वायु सेना) ए.डी.सी

एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ प.वि.से.मे. अ.वि.से.मे. यु.से.मे. वा.मे. एडीसी (15405) एफ(पी)

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2017 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक (वायु सेना) ए.डी.सी.

एयर मार्शल सी. हरि कुमार अ.वि.से.मे. वा.मे. वा.से.मे. (15881) एफ(पी)

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 46, दिनांक 24 जनवरी 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (समयमान द्वारा) के मूल रैंक में

आई सी सं	नाम	आर्म	सबस्टेंटिव तिथि
46534के	के ए जोसफ़	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46544एन	इंदरजीत सिंह	इंजीनियर्स	24 अप्रैल 2016
46561एन	संजय मलिक	ए सी	24 अप्रैल 2016
49158एम	एस यादव	ए ए डी	16 दिसम्बर 2015
49321एफ	एम पी सिंह	आर्टी	16 दिसम्बर 2015
49338पी	जी एस बजाज	आर्टी	16 दिसम्बर 2015
49353के	सी सुरेश	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
49452एम	निर्भय कुमार	ए एस सी	09 जून 2016
49519ए	पी के पांडे	आर्टी	09 जून 2016
49596पी	एस मैथ्यू	ए एस सी	09 जून 2016
49601पी	पी एम चांदेवार	आर्टी	09 जून 2016
49610डब्ल्यू	एस छेत्री	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49618एच	एम के देशमुख	आर्टी	09 जून 2016
49638डब्ल्यू	संजीव गजराज	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49643एफ	बी वी डी प्रसाद	इंजीनियर्स	09 जून 2016
49644के	ए एस नेगी	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49646पी	एस पी सिंह	इंजीनियर्स	09 जून 2016
49654एन	एस शोरोट	आर्टी	09 जून 2016
49658के	जी राणा	ए ओ सी	09 जून 2016
49661के	एस एस जाधव	इंजीनियर्स	09 जून 2016
49662एम	एस के चौहान	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49665ए	पी पी एस जी चौहान	ए एस सी	09 जून 2016
49670एल	आर बहल	ए सी	09 जून 2016
49702एच	करन सिंह	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49706वाई	ए के पांडे	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49709एम	एस पी एस सग्गू	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49717एल	बी अनिल कुमार	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49740वाई	एम कौशल	आर्टी	09 जून 2016
49772एफ	मोनाश बक्शी	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49773के	ए शर्मा	गार्ड्स मैक	09 जून 2016

आई सी सं	नाम	आर्म	सबस्टेंटिव तिथि
49777ए	वी चंदर	गार्डस मैक	09 जून 2016
49784डब्ल्यू	मयंक पसबोला	ई एम ई	09 जून 2016
49791एम	ए चौधरी	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49793एक्स	रजत शर्मा	सिगनल्स	09 जून 2016
49795एच	राजीव बग्गा	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49798डब्ल्यू	संदीप सिंह	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49819एफ	एस शर्मा	एम एफ	09 जून 2016
51404एल	एफ अमृथाराज पी ए	ई एम ई	13 जून 2016
51424वाई	इकबाल असलम	इंजीनियर्स	13 जून 2016
51427एम	आर कुमार	सिगनल्स	13 जून 2016
51431पी	ए शांडिल्य	सिगनल्स	13 जून 2016
51439एफ	वाई मोहन	इंजीनियर्स	13 जून 2016
51455वाई	के रोशन राज	ई एम ई	13 जून 2016
33465ए	ए पी सिंह	इंफेन्ट्री	16 दिसम्बर 2004
46010एच	एस वी रामनी	इंफेन्ट्री	22 अप्रैल 2014
49778एच	आर एस चीमा	ए ए डी	09 जून 2016
वी00431एम	एस एल बघेल	आर वी सी	10 अक्टूबर 2013
37773एक्स	एम एस गुरोन	ए सी	29 अप्रैल 2007
45636एन	वी राजदान	इंफेन्ट्री	06 नवम्बर 2012
46162के	एस चक्रवर्ती	सिगनल्स	01 नवम्बर 2014
46480एन	एस पी सिंह	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46507ए	आर एस नूधाल	मैक इंफेन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46538ए	सुखवीर सिंह	गार्डस मैक	24 अप्रैल 2016
46549एम	एस एस आहलूवालिया	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
47608ए	जयदेव सिंह	इंफेन्ट्री	11 जून 2014
48559पी	बी एस कूल्लर	ए एस सी	10 जून 2015
49003एक्स	ए ऋषि	इंफेन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49064पी	अनिल राणा	इंफेन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49126के	आर के भर	इंफेन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49284वाई	एम शर्मा	इंफेन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49535एक्स	संजीवा	गार्डस मैक	09 जून 2016
49649एच	जे एस चीमा	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49732ए	एस के सलवान	मैक इंफेन्ट्री	09 जून 2016
49745एक्स	सी एन गोस्वामी	इंफेन्ट्री	09 जून 2016
41298के	सागर मल	आर्टी	18 जून 2009

आई सी सं	नाम	आर्म	सबस्टेंटिव तिथि
44524एफ	वी अदित्या	आर्टी	13 जून 2013
46050के	दुष्यंत सिंह	आर्टी	01 नवम्बर 2014
46131के	ए के साहा	आर्टी	01 नवम्बर 2014
46135ए	जे डी कोहूक	आर्टी	01 नवम्बर 2014
46323एफ	ए धल्ल	आर्टी	09 नवम्बर 2015
46351एन	बी जे डी सूजा	इंफैन्ट्री	09 नवम्बर 2015
46524ए	आर एस राठौर	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46528डब्ल्यू	जे एलेक्जेंडर	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46545डब्ल्यू	पी एस कंवल	ए ए डी	24 अप्रैल 2016
47088ए	पी जी सुब्बापुरमाथ	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
49288पी	पी के जे परदेशी	आर्टी	16 दिसम्बर 2015
49312ए	ए शर्मा	ए सी	16 दिसम्बर 2015
49324पी	एस शर्मा	इंफैन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49337एम	के के नायर	ए एस सी	16 दिसम्बर 2015
49594के	एस वी पटवर्धन	इंफैन्ट्री	09 जून 2016
49631एम	सुखदेव सिंह	आर्टी	09 जून 2016
49734एल	आई घोशाल	आर्टी	09 जून 2016
49780ए	सतनाम सिंह	इंजीनियर्स	09 जून 2016
51433ए	कान देव	इंजीनियर्स	13 जून 2016
51451एच	विवेक जैन	इंजीनियर्स	13 जून 2016
वी00453एल	सी एस राठौर	आर वी सी	17 जून 2015
वी00456वाई	अनुराग कोहली	आर वी सी	17 जून 2015
33997ए	एन सी नन्जप्पा	इंजीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
42383वाई	आर एस राणा	इंफैन्ट्री	15 दिसम्बर 2010
42658एफ	डी ढीगरा	आर्टी	15 दिसम्बर 2010
45463एफ	आर पांडे	आर्टी	07 नवम्बर 2011
46229एक्स	बी एस साहनी	इंफैन्ट्री	18 अप्रैल 2015
46421एफ	डी आर जी एफ एंथनी	आर्टी	09 नवम्बर 2015
46479वाई	एस कुमार	इंफैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46511एच	जी एस गिल	इंफैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46523एक्स	रजनीश सोबती	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46531डब्ल्यू	अशोक कुमार	ए ए डी	24 अप्रैल 2016
46560एल	एम ए आप्टे	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
48148डब्ल्यू	एम के सावंत	ए ओ सी	17 दिसम्बर 2014
48565एच	सजीमॉन मैथ्यू	मैक इंफैन्ट्री	10 जून 2015

आई सी सं	नाम	आर्म	सबस्टेंटिव तिथि
48733डब्ल्यू	सुभाष भार्गव	ए ए डी	10 जून 2015
48789एच	एम एम मेहरा	ए ए डी	10 जून 2015
49382वाई	देवव्रत कर	ए ई सी	16 दिसम्बर 2015
49416एफ	आर पी सिन्हा	ए ई सी	16 दिसम्बर 2015
49534पी	गोपी कुमार	इंफैंट्री	09 जून 2016
49750एच	रोहित यादव	इंफैंट्री	09 जून 2016
49781एच	आर गुप्ता	ई एम ई	09 जून 2016
49828एच	ए के झा	ए ई सी	09 जून 2016
49862एच	आर के पोखरियाल	ए ई सी	09 जून 2016
51105एम	के सुधाकर	इंजीनियर्स	17 दिसम्बर 2015
51444एम	पी मथुसूथनन	ई एम ई	13 जून 2016
46456एक्स	वी रघुवंशी	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46587एच	आर चंद्रा	सिगनल्स	08 नवम्बर 2016
46598पी	संजीव कुमार	इंफैंट्री	08 नवम्बर 2016
46601के	संजय सिंह	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
46619ए	आर श्रीवास्तव	आर्टी	08 नवम्बर 2016
46652एक्स	ऋषि देव	सिगनल्स	08 नवम्बर 2016
46664एम	ए के मिश्रा	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
46665पी	राजेश टंडन	इंफैंट्री	08 नवम्बर 2016
46670ए	डी के यादव	आर्टी	08 नवम्बर 2016
49699एन	टी ए देशमुख	आर्टी	09 जून 2016
49703एल	एम एस कांग	इंफैंट्री	09 जून 2016
46616एम	डी एन राय	इंफैंट्री	08 नवम्बर 2016
46618एक्स	जे वालिया	गार्ड्स मैक	08 नवम्बर 2016
46651पी	एच एस धालीवाल	इंफैंट्री	08 नवम्बर 2016
46657डब्ल्यू	बृजेन्द्र कुमार	इंफैंट्री	08 नवम्बर 2016
46666एक्स	राजेश कुमार	सिगनल्स	08 नवम्बर 2016
41143पी	डी फौजदार	आर्टी	18 जून 2009
47375के	शंकर सिंह	इंफैंट्री	19 दिसम्बर 2013
48708एक्स	ए एस रंधावा	इंफैंट्री	10 जून 2015
49940पी	एस के सिंह	ए एस सी	15 दिसम्बर 2016
49956ए	एस के सिंह	ए ओ सी	15 दिसम्बर 2016
50038ए	नलिन चौहान	ई एम ई	15 दिसम्बर 2016
50097एम	डी के राणा	ए ओ सी	15 दिसम्बर 2016
50100एफ	आर मेहता	आर्टी	15 दिसम्बर 2016

आई सी सं	नाम	आर्म	सबस्टेंटिव तिथि
50127वाई	ए एस संभयाल	सिगनल्स	15 दिसम्बर 2016
50218एच	टी एस भंडारी	इंफैंट्री	15 दिसम्बर 2016
50262एम	जी सी मोहंता	ए ई सी	15 दिसम्बर 2016
51899एच	सी जार्ज	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2016
51912एफ	आर वी सिंह	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2016
51922एल	अनंथ श्रीनिवास	ई एम ई	19 दिसम्बर 2016

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं0	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 58864	एस जी गनपति	मैक इन्फैंट्री	01/08/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58887	रीतेश कुमार	मैक इन्फैंट्री	01/08/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59056	के बलहारा, एस एम	मैक इन्फैंट्री	01/08/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59079	एस सेनगुप्ता	मैक इन्फैंट्री	01/08/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59677	गोवर्धन जी जी	इन्फैंट्री	04/10/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59735	एन एस जसवाल	इन्फैंट्री	23/09/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59902	विक्रम राना	इन्फैंट्री	29/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 50844	के एम राय	जैग	02/12/13 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/06/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 56944	ए यादव	मैक इन्फैंट्री	01/09/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस 8ए

सेना शाखा

सं. 47, दिनांक 25 जनवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना
स्थाई कमीशन (एस एल)
मेजर से ले कर्नल

एस एल सं0	नाम	आर्म
एस एल-4737	रणधीर सिंह	एस एल बी/आर
एस एल-4738	कुबेन्दरन आर	एस एल बी/आर
एस एल-4739	करनपाल सिंह वर्मा	एस एल बी/आर

एस एल सं०	नाम	आर्म
एस एल-4741	जी पलानी वेलू	एस एल बी/आर
एस एल-4742	भरत	एस एल बी/आर
एस एल-4743	सुरेश कुमार पी एस	एस एल बी/आर
एस एल-4746	रंजीत सिंह गुसाईं	एस एल ई/एम
एस एल-4747	उदय कुमार टी	एस एल (आर ओ)
एस एल-4748	महाबीर सिंह	एस एल बी/आर
एस एल-4749	भवानी शंकर	एस एल बी/आर
एस एल-4750	दिनेश कुमार	एस एल बी/आर
एस एल-4751	संजय कुमार	एस एल बी/आर
एस एल-4752	मुकेश कुमार	एस एल बी/आर
एस एल-4755	एल एल जिबोन सिंह	एस एल टी ओ टी
एस एल-4756	शाजी जोश	एस एल (आर ओ)
एस एल-4757	पदमनाभा प्रभु बी	एस एल टी ओ टी
एस एल-4758	सत्येन्द्र नारायण सिंह	एस एल (आर ओ)
एस एल-4759	रमेश सिंह	एस एल (आर ओ)
एस एल-4760	किशन सिंह	एस एल (आर ओ)
एस एल-4761	पी पी बिबु	एस एल ए ओ सी
एस एल-4762	प्रदीप कुमार	एस एल (आर ओ)
एस एल-4763	अनिल कुमार पिल्लई	एस एल (आर ओ)
एस एल-4764	हनुमंथा प्रसाद पी	एस एल टी ई ओ (ए ए डी)
एस एल-4765	बोरुडे राजेन्द्रा सूर्यभान	एस एल (आर ओ)
एस एल-4766	लिनसन थोमस	एस एल (आर ओ)
एस एल-4767	रुपिंदर सिंह	एस एल (आर ओ)
एस एल-4768	के मनोहरन	एस एल बी/आर
एस एल-4769	अमरनाथ एन	एस एल ई/एम
एस एल-4770	सतीश कुमार सिंह	एस एल ई/एम
एस एल-4771	शंकरा नारायणन पोटटी आर	एस एल ई/एम
एस एल-4772	वीरपाल सिंह	एस एल (आर ओ)

—05 जुलाई 2016—

स्थायी कमीशन
मेजर से ले कर्नल

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
65642	अभिजीत मिश्रा	इंफैन्ट्री	02 नवम्बर 2016
65643	मुकेश कुमार टांक	आर्टी	02 नवम्बर 2016
65803	रतन बहादुर	मेक इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
65804	अभिषेक द्विवेदी	ए सी	08 नवम्बर 2016
65805	हितेश कौशिक	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65807	जोहन विनुथ डी कोस्टा	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65809	संदीप कुमार	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
65810	निशांत कार्की	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65811	राकेश सिंह	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65812	चरन जीत सिंह संधु	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65813	संजय कुमार	ए ए डी	08 नवम्बर 2016
65814	राम दयाल व्यास	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65815	नीरज कपूर	इंजिनियर्स	08 नवम्बर 2016
65816	मयंक अग्रवाल	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65817	नवीन कुमार त्यागी	ए ए डी	08 नवम्बर 2016
65819	विशाल शर्मा	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65820	अरुण गुलाटी	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65821	भोस्ले अजय उल्हास	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65822	जयदीप सियोरन	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65823	अमरिंदर सिंह वालिया	ए सी	08 नवम्बर 2016
65825	एच लीलित बाबू	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65826	प्रदीप कुमार	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65827	रमित हसिजा	ए ए डी	08 नवम्बर 2016
65828	विकास चंदर	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65829	गोपाला कृष्णन के	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65830	मयुर रतुरी	ई एम ई	08 नवम्बर 2016
65831	गुरिंदर पॉल सिंह गग्नेजा	ई एम ई	08 नवम्बर 2016
65832	अंबुज बल्लव साहु	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65833	के जे थोमस	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
65834	जगपाल सिंह	मेक इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65835	कश्वा रतनदीप विजय	सिगनल्स	08 नवम्बर 2016
65837	सैंगसोंगबोउ विशुनमल	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65838	राज कुमार शर्मा	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65839	विश्वानाथ तिवारी	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65842	पंकज कुमार	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65844	विजय रॉव	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65845	सिद्धार्थ विजय शेशन	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65846	दिलेर सिंह जाखड	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65847	राजीव यादव	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65848	खुशवंत मालवीय	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
65849	धरम जोत सिंह	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
65851	अभिषेक रॉय	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65852	अनिल झाखड	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65854	अमरदीप सिंह	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65856	कमलजीत सिंह लवाना	इंजिनियर्स	08 नवम्बर 2016
65858	राहुल शर्मा	ए ओ सी	08 नवम्बर 2016
65859	पंकज जसवाल	इंजिनियर्स	08 नवम्बर 2016
65860	गौरव ग्रेवाल	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65861	गोपाल कृष्णा जे	ई एम ई	08 नवम्बर 2016
65866	सुशील लखनपाल	ई एम ई	08 नवम्बर 2016
65871	अर्नब मित्रा	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65872	अरविंद चौहान	आर्टी	08 नवम्बर 2016
65873	जयदीप सिंह	ए सी	08 नवम्बर 2016
65875	अभिलास वरगिज	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
65877	विशाल थापा	सिगनल्स	08 नवम्बर 2016
65879	शशीकिरण देशपांडे	इंजिनियर्स	08 नवम्बर 2016
65880	कुमार राजा एम एस	ए एस सी	08 नवम्बर 2016
65876	जितेन्द्र चर्तुवेदी	आर्टी	08 नवम्बर 2016
66175	विकास मलिक	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66177	दत्ता साइबल सुभाष चन्द्र	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66505	पिसल अभय विजय सिंह	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66506	सुचिन्द्रा द्विवेदी	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66508	भुपेन्द्र हंग सुब्बा	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66509	मंजूनाथ आर	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66510	सरबजोत सिंह सोही	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66513	गगनदीप कुमार	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66516	विवेक बिन्द्रा	इंजिनियर्स	17 अक्तूबर 2016
66521	परवीन ढोगरा	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66522	गगनदीप सिंह	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66523	हरकरन सिंह	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66524	राकेश	इंजिनियर्स	17 अक्तूबर 2016
66527	जी आनंद	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66531	नवीन मिश्रा	ई एम ई	17 अक्तूबर 2016
66532	चौधरी जयंत भगवान	इंजिनियर्स	17 अक्तूबर 2016
66534	प्रशांत त्रिवेदी	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
66517	बलजीत सिंह	सिगनल्स	17 अक्तूबर 2016
62340	अमित दाधिच	गार्ड्स मेक	08 जून 2015
62957	राज सिंह दुहान	ई एम ई	14 जून 2016
62958	अजित खत्री	इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
62959	एंटोनी जोसफ	ए ए डी	14 जून 2016
62960	कपिल खंडुशी	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62961	रितेश रामनिवास लडडा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62962	निखिल भारद्वाज	ए सी	14 जून 2016
62964	विनायक	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62965	दमनजीत सिंह विंक	ए ओ सी	14 जून 2016
62966	राकेश टोकस	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62967	विकास मलिक	ए एस सी	14 जून 2016
62968	मानस नायर	आर्टी	14 जून 2016
62969	अनिल के	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62970	प्रदीप कुमार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62971	मोहित सहाय	आर्टी	14 जून 2016
62972	बेंजी जॉर्ज थोमस	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62973	करन भाटिया	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62974	नरेन्द्र पाल सिंह	ए ओ सी	14 जून 2016
62975	रंजीत सिंह पठानिया	ए सी	14 जून 2016
62976	रचित शर्मा	आर्टी	14 जून 2016
62977	राहुल कंवर	ए एस सी	14 जून 2016
62978	राहुल वत्सयायन	आर्टी	14 जून 2016
62979	प्रतीक शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62980	गौरव सिंह	ए सी	14 जून 2016
62981	विनोद कुमार एस रचनावर	सिग्नल्स	14 जून 2016
62982	प्रशांत कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62983	रजनीश कुमार	इंजिनियर्स	14 जून 2016
62984	राहुल अग्रवाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62985	के विजय आनंद	आर्टी	14 जून 2016
62986	बिश्वास आर नामबियार	ए वी एन	14 जून 2016
62987	निकित बिष्ट	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62988	आर राघवन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62989	राजीव कुमार यादव	ए ओ सी	14 जून 2016
62990	पारस रेहनी	इंजिनियर्स	14 जून 2016
62991	तरुणद्रा प्रताप सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62992	विवेक महाजन	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62993	साकेत रावत	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
62994	श्री राघवेंधिरा प्रभु आर	आर्टी	14 जून 2016
62995	ऋषि शर्मा	ए ओ सी	14 जून 2016
62996	सुनील कुमार	आर्टी	14 जून 2016
62997	विजय कुमार थापा	ए एस सी	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
62998	शिवम	आर्टी	14 जून 2016
62999	बिंशु मैथ्यु चेरियन	ए एस सी	14 जून 2016
63000	राजेश कुमार भारद्वाज	ए बी एन	14 जून 2016
63001	रमिंदर सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63002	शीशपाल सिंह रावत	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63003	प्रदीप शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63004	निखिल कपूर	ए ए डी	14 जून 2016
63005	राकेश कुमार सिंह	ए ओ सी	14 जून 2016
63006	राम कुमार सिंह	आर्टी	14 जून 2016
63007	अंकित सूद	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63008	नीरज मारवा	ए सी	14 जून 2016
63009	कमलेश कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63010	विनय कुमार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63011	संजय बिष्ट	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63012	बिनित कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63014	योगेंद्र दत्त शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63015	विवेक एलावकुननाथ	आर्टी	14 जून 2016
63016	अमित सैनी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63017	आशिष कुमार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63018	आशिष आनंद अभयंकर	ए बी एन	14 जून 2016
63019	ऋषि केश शर्मा	ए ओ सी	14 जून 2016
63020	अनुराग तलवार	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63021	सुमित घाघट	सिगनल्स	14 जून 2016
63022	आशुतोष कुमार सिंह	ए एस सी	14 जून 2016
63023	लागेश्रींग लैप्चा	ए ओ सी	14 जून 2016
63024	रवि रंजन	आर्टी	14 जून 2016
63025	अभिषेक भारती	ए ए डी	14 जून 2016
63026	गजेन्द्र कुमार	ए ओ सी	14 जून 2016
63027	आदित्य कपूर	आर्टी	14 जून 2016
63028	विवेक सभरवाल	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63029	अरुण यादव	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63030	खुंदकपम जॉर्ज सिंह	ए ओ सी	14 जून 2016
63031	अनुजॉय भौमिक	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63032	आशुतोष सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63033	तुषार सिंह तोमर	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63034	मोहित चौहान	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63035	आदर्श सिंह परिहार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63036	सारांश निगम	इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63037	कौशल भाटिया	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63038	रजत सिंह जसवाल	ए सी	14 जून 2016
63039	रवि शेखर मिश्रा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63040	हिमांशु पांडे	ए एस सी	14 जून 2016
63041	प्रणय श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63042	जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	आर्टी	14 जून 2016
63043	रवि सिंह बघेल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63044	भावतोष दास	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63045	अशवनी जोशी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63046	प्रवीण झाखड	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63047	लोकनदम गुरुवेल्ली	आर्टी	14 जून 2016
63048	मैथ्यु चेरियन	ए बी एन	14 जून 2016
63049	गौरव कित्चलु	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63051	जगप्रीत सिंह	ए सी	14 जून 2016
63052	राकेश कटोच	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63053	बिक्रम दास	ए एस सी	14 जून 2016
63054	आशीष रावत	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63055	सचिन जैन	ए ए डी	14 जून 2016
63056	गोपाल अरज्याल	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63057	सुधीप घातक	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63058	ध्रुव रहेजा	ए सी	14 जून 2016
63059	विपुल गुप्ता	आर्टी	14 जून 2016
63060	आदित्य पुरी	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63061	विनीत कुमार	ए सी	14 जून 2016
63062	विक्रम सघोत्ता	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63063	मुकेश कुमार झा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63064	पीयूष एस कतल	आर्टी	14 जून 2016
63065	संदीप राणा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63066	शोरभ लाहिरी	सिगनल्स	14 जून 2016
63067	अमित भटनागर	ए ए डी	14 जून 2016
63068	पंकज पाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63069	दीपक राणा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63070	पनयश्लोक ब्रह्मा	आर्टी	14 जून 2016
63071	घाटगे विशाल शिवाजी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63072	महिपाल लाथेर	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63073	विश्वानाथ प्रताप सिंह	ए बी एन	14 जून 2016
63074	गुरतेज सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63075	मनी इंदर पाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63076	नेत्राजीत चोंगतम	आर्टी	14 जून 2016
63077	अमित कुमार सिंहाग	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63078	विशाल के दीवातागी	ए एस सी	14 जून 2016
63079	गौरव वशिष्ठ	आर्टी	14 जून 2016
63080	थोमस सेबस्टियन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63081	सुनील कुमार चौबे	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63082	रतनदीप दास	आर्टी	14 जून 2016
63083	शौरभ वत्स	ए ए डी	14 जून 2016
63084	बंदी प्रवीन अरुण	आर्टी	14 जून 2016
63085	जगदीश चंद्र पंत	ए ओ सी	14 जून 2016
63086	निशांत अरविंद	आर्टी	14 जून 2016
63088	जोनाथन वरुण बेंजामीन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63089	एस आनंद	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63090	तरण भसीन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63091	विक्रम प्रताप सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63092	मोहित सिंह पठानिया	ए सी	14 जून 2016
63094	सुमित कोहली	ए ओ सी	14 जून 2016
63095	आर वी विश्वानाथ	ए ओ सी	14 जून 2016
63096	विकास शुक्ला	आर्टी	14 जून 2016
63098	हेमंत कुमार शर्मा	ए वी एन	14 जून 2016
63100	पीयूष भट्ट	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63101	मोहवर सिंह ग्रेवाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63102	अमित कुमार त्यागी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63103	सुहेल सिंह सलारिया	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63104	बिमलेश कुमार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63105	सुरज भाटिया	ए एस सी	14 जून 2016
63106	के प्रताप सिंह	ए सी	14 जून 2016
63107	चरन सिंह शेखावत	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63108	अमित कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63110	अनिंदया चटर्जी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63111	रयान चक्रवर्ती	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63112	बिबेक चक्रोबुर्ती	मेक गार्ड	14 जून 2016
63113	सुमित सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63114	साकेत साहनी	इंट	14 जून 2016
63115	रविंदर सिंह	इंट	14 जून 2016
63117	अभिषेक भारद्वाज	आर्टी	14 जून 2016
63118	आशुतोष शर्मा	ए सी	14 जून 2016
63119	राकेश शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63120	राजशेखर शर्मा	ए एस सी	14 जून 2016
63121	पंकज कुमार उपाध्याय	ए एस सी	14 जून 2016
63123	वरुण सरिन	ए ए डी	14 जून 2016
63124	ध्रुव बोरा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63125	जे वुंगमाजन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63126	रितेश त्रिपाठी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63127	अर्जुन मोहीता	इंट	14 जून 2016
63128	मान्चेद्र सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63129	पीयुष कुमार साहा	आर्टी	14 जून 2016
63130	कृष्णा कपूर	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63131	कुलविंदर सिंह	ए सी	14 जून 2016
63132	अनुप कुमार श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63133	अनिल सिंह	ए एस सी	14 जून 2016
63134	अभिषेक बमोला	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63135	राजेश चौधरी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63136	विपलव त्रिपाठी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63137	शिशपाल सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63138	अशोक कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63139	पुनीत शर्मा	आर्टी	14 जून 2016
63140	अभिषेक शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63141	प्रताप कुमार दास	ए ए डी	14 जून 2016
63143	विष्णु कांत अवस्थी	ए ओ सी	14 जून 2016
63144	शांतनु केन्नी	मेक गार्ड	14 जून 2016
63145	प्रवीर के रे	ए ओ सी	14 जून 2016
63146	चेतन चोपड़ा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63147	तरुण कात्याल	ए एस सी	14 जून 2016
63148	कुशवीर नंदा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63149	वरुण भसीन	मेक गार्ड	14 जून 2016
63150	हरदीप सिंह आबरॉय	आर्टी	14 जून 2016
63151	शौभिक भट्टाचार्य	सिगनल्स	14 जून 2016
63152	एन एम मनोज कुमार	ए ओ सी	14 जून 2016
63154	सी प्रसन्नन	आर्टी	14 जून 2016
63155	गगनदीप सिंह कोहली	आर्टी	14 जून 2016
63156	चंद्रमनी सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63157	सुधाकर द्विवेदी	ए ई सी	14 जून 2016
63158	श्रीनिवास पार्थासार्थी	आर्टी	14 जून 2016
63159	श्रीजीथ पी मेनन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63160	सुमेश	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63161	कपिल सेनी	ए एस सी	14 जून 2016
63162	शौरभ महरोत्रा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63163	भरत सिंह पंवार	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63164	जसबिंदर सिंह लबाना	ए वी एन	14 जून 2016
63165	महेन्द्र कुमार तिवारी	इंट	14 जून 2016
63166	अमित ठाकुर	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63167	अंकुर मोहन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63168	शक्ति सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63169	जौयदीप सरकार	आर्टी	14 जून 2016
63170	विवेक पंचोली	आर्टी	14 जून 2016
63171	आशीष अरुण देशपांडे	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63172	सुनील कुमार	ए ओ सी	14 जून 2016
63173	अनिल सोनाजीराव कदम	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63174	प्रतीक गुप्ता	आर्टी	14 जून 2016
63175	प्रकाश कुमार सिंह	आर्टी	14 जून 2016
63176	अखिलेश कुमार	ए ओ सी	14 जून 2016
63177	प्रशांत सिंह खाटी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63179	प्रमोद कुमार	इंट	14 जून 2016
63180	देवेश शाही	ए एस सी	14 जून 2016
63181	चन्द्र प्रकाश शर्मा	ए ए डी	14 जून 2016
63182	प्रशांत जशरोठिया	ए सी	14 जून 2016
63183	अक्षय जैन	आर्टी	14 जून 2016
63184	कपिल त्यागी	ए ए डी	14 जून 2016
63185	एस संतोष	मेक इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63186	सुयोग दवे	ए ए डी	14 जून 2016
63187	गौरव जयसिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63188	गिरी राज धरन	मेक गार्ड	14 जून 2016
63189	आशुतोष झा	आर्टी	14 जून 2016
63190	संजीव कुमार राणा	ए ओ सी	14 जून 2016
63191	शोना जोर्ज	आर्टी	14 जून 2016
63193	रंगनाथ पाटिल	आर्टी	14 जून 2016
63194	शुशमीत बैनर्जी	ए सी	14 जून 2016
63195	देव बसु माधव	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63196	पराग बिष्ट	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63197	ब्रिजेन्द्रा सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63198	गौतम आनंद	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63199	राजेश चंद्र खजुरिया	ए एस सी	14 जून 2016
63200	अमन कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63201	युनेश चौधरी	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63202	दिनेश सिंह	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63203	विशाल शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63204	सुमित सचदेवा	ए ओ सी	14 जून 2016
63206	अरुणभ सिंह	ए बी एन	14 जून 2016
63207	जोशी हेमंत मोहनलाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63209	मनीष शर्मा	ए एस सी	14 जून 2016
63210	मीतुष राघव	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63211	चिरोम इबुन्गो	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63212	गिरिश शेखर	ए बी एन	14 जून 2016
63214	सी एन रमेश	ए एस सी	14 जून 2016
63215	अनुप ग्रेवाल	आर्टी	14 जून 2016
63216	प्रियंक शर्मा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63217	चेतन कुमार	ए ए डी	14 जून 2016
63218	अरुण प्रकाश मोर्या	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63219	विजय कुमार लामा	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63220	अय्यर अरुण राजन	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63221	शिवकुमार एम	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63222	सुमित कुमार चंदेल	ए ओ सी	14 जून 2016
63223	जयदीप सिंह	ए सी	14 जून 2016
63225	टी एम प्रवीन कुमार	आर्टी	14 जून 2016
63226	कुमार अभिषेक	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63227	नीतिन अग्निहोत्री	इंट	14 जून 2016
63228	अभिषेक जुयाल	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63229	अक्षय दास	इंफैन्ट्री	14 जून 2016
63230	समीर शर्मा	ए सी	14 जून 2016
63231	राजेश कुमार	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63232	मोहित गौड	सिगनल्स	14 जून 2016
63233	देबीशीष दासगुप्ता	आर्टी	14 जून 2016
63234	गगन सिंह	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63235	प्रबल श्रीवास्तवा	सिगनल्स	14 जून 2016
63236	योगेश मेहता	ए बी एन	14 जून 2016
63237	आशुतोष कुमार	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63238	संजीव नरुला	ई एम ई	14 जून 2016
63239	आशीष खत्री	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63240	विपुल अग्रवाल	सिगनल्स	14 जून 2016
63241	रोहित	ई एम ई	14 जून 2016
63242	मनीष पाठक	इंजिनियर्स	14 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
63243	रुचिन सिंगल	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63244	गौरव सिंह	ई एम ई	14 जून 2016
63245	समर सिरोही	सिगनल्स	14 जून 2016
63246	सुमित प्रकाश गुप्ता	ई एम ई	14 जून 2016
63248	अभिनव कुमार चौधरी	ई एम ई	14 जून 2016
63249	अधिश सिन्हा	ई एम ई	14 जून 2016
63250	भविष्या कश्यप	सिगनल्स	14 जून 2016
63251	खुशलेन्द्र त्यागी	ई एम ई	14 जून 2016
63252	जयकृष्ण माशके	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63253	तुमुसारा चन्द्रा	ई एम ई	14 जून 2016
63254	सुधीप मोहन रावत	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63255	मनीश कोकेल	सिगनल्स	14 जून 2016
63256	चिन्मया मुंड	ई एम ई	14 जून 2016
63257	विख्यात गर्ग	सिगनल्स	14 जून 2016
63258	गौरव श्रीवास्तवा	सिगनल्स	14 जून 2016
63259	अनिरुद्ध बोस	सिगनल्स	14 जून 2016
63260	अनिल रानाकोठी	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63261	अमित सिंह	ई एम ई	14 जून 2016
63262	अपूर्व संजीव सारंगपानी	ई एम ई	14 जून 2016
63263	विवेक यादव	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63264	संदीप कुमार दास	सिगनल्स	14 जून 2016
63265	सुरजीत सिन्हा रॉय	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63266	शौरभ सूद	सिगनल्स	14 जून 2016
63267	पिल्लई सुनील शंकर	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63268	आशीष आनंद	ई एम ई	14 जून 2016
63269	मोहित गोगना	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63270	अक्षय कपूर	सिगनल्स	14 जून 2016
63271	राजेश उन्नीकृष्णन	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63272	प्रणव मोहोतरा	सिगनल्स	14 जून 2016
63273	संजीव कुमार सिंह	ई एम ई	14 जून 2016
63274	कालरा ऋषभ	ई एम ई	14 जून 2016
63275	अभिषेक अग्रवाल	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63276	ऋषिकेश अरुण खेडकर	इंजिनियर्स	14 जून 2016
63287	अनिल देवसिंह जसरोठिया	ए ई सी	14 जून 2016
63291	जी अशोक कुमार	ए ई सी	14 जून 2016
63338	बंकटा बाबू सी	ए ई सी	14 जून 2016
63363	उमेश प्रताप सिंह राठौड	ए ई सी	14 जून 2016
67279	गौरव चौधरी	ए सी	15 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
67280	जोरावर सिंह राणा	ई एम ई	15 जून 2016
67281	अंकुश गोयल	सिगनल्स	15 जून 2016
67284	भानू प्रताप सिंह कतवाल	सिगनल्स	15 जून 2016
67285	सिद्धांती अजिंकया अंबादास	ई एम ई	15 जून 2016
67286	गुरसेवक सिंह	ई एम ई	15 जून 2016
67287	अरविंद शहाबदी	आर्टी	15 जून 2016
67289	अधीश श्रीवास्तवा	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67290	टी जै भरतकुमार	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67292	अपरिहार्य कोल	ई एम ई	15 जून 2016
67293	उदय सिंह बारंगुले	ई एम ई	15 जून 2016
67294	योगेन्द्र कुमार	ए ए डी	15 जून 2016
67295	लीसंगथम रोबर्ट ब्रुश	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67296	राज ब्रिंदर सिंह संधु	सिगनल्स	15 जून 2016
67297	विवेक यादव	सिगनल्स	15 जून 2016
67300	विनित गौड	सिगनल्स	15 जून 2016
67301	राहुल गौरव सिसोदिया	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67302	राना मितेश कुलदीप	ई एम ई	15 जून 2016
67303	अजय कुमार	ई एम ई	15 जून 2016
67304	गुर प्रीत सिंह	सिगनल्स	15 जून 2016
67305	अक्षत वशिष्ट	सिगनल्स	15 जून 2016
67306	गौरव जसवाल	सिगनल्स	15 जून 2016
67307	आकास अरोडा	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67309	जे सांडिल्य	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67310	रवि कुमार सिंह	आर्टी	15 जून 2016
67311	सव्या सांक्षी	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67312	विनीत लखनपाल	ए सी	15 जून 2016
67313	विनय श्रीनिवासन	ई एम ई	15 जून 2016
67316	हिर्देकर शिशिर भागवान	ई एम ई	15 जून 2016
67317	अभिषेक सिंह	ई एम ई	15 जून 2016
67318	सुमन कुमार सरकार	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67319	जोशी गिरिश गोपाल	ई एम ई	15 जून 2016
67320	उत्कर्ष आचार्य	सिगनल्स	15 जून 2016
67321	रजत सहरावत	ए ए डी	15 जून 2016
67322	सूर्यवंशी अनिरुद्ध दिलिप सिंह	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67323	नीरज रावत	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67324	तेजस दीपक मेहता	सिगनल्स	15 जून 2016
67325	बिदकर कीर्तिकुमार जयाप्रकास	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67326	आशीष भट्ट	सिगनल्स	15 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
67327	नीरज दहिया	ई एम ई	15 जून 2016
67328	राम अवतार सिंह सिवास	आर्टी	15 जून 2016
67329	जनगिद यशपाल रामकुमार	ई एम ई	15 जून 2016
67330	राहुल गिंडे	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67331	वसीम सिद्धीकी	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67332	जीनेश एच पाई	ई एम ई	15 जून 2016
67333	आशीष पांडे	सिगनल्स	15 जून 2016
67334	सनमीत सिंह	ए सी	15 जून 2016
67336	हमितेश सिंह	ई एम ई	15 जून 2016
67337	नदागडल्ली अक्षय कुमार ए वी	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67338	अरुण नायर वी	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67339	पी विपिन मेनन	सिगनल्स	15 जून 2016
67340	अविनास कुमार मिश्रा	ई एम ई	15 जून 2016
67343	वैडंडे राहुल डेविड	आर्टी	15 जून 2016
67345	जसमिंदर सिंह गौरया	सिगनल्स	15 जून 2016
67347	प्रभमीत सिंह मानिक	सिगनल्स	15 जून 2016
67348	विवेक चन्द्र	सिगनल्स	15 जून 2016
67349	सपमचा मोमो	आर्टी	15 जून 2016
67351	गोरंग कौशिक	सिगनल्स	15 जून 2016
67352	रमन कोहली	सिगनल्स	15 जून 2016
67353	रजनीश कुमार पतयाल	सिगनल्स	15 जून 2016
67354	अतुल नय्यर	सिगनल्स	15 जून 2016
67355	शिखरे अभय अशोकरोव	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67356	अभिषेक भारद्वाज	सिगनल्स	15 जून 2016
67357	विमीरेडडी कांति कुमार	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67359	रामप्रसाद जोशी आर	सिगनल्स	15 जून 2016
67360	विनीत दगाडु कालोखे	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67361	जयदीप रॉय	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67362	रोहित सिन्हा	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67366	एम जयप्रकाश उद्यवरोव	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67368	सुमित घोष	ई एम ई	15 जून 2016
67369	कार्तिकेयन आर	ई एम ई	15 जून 2016
67371	कंवरजीत सिंह	सिगनल्स	15 जून 2016
67372	संदीप सिंह	ए बी एन	15 जून 2016
67374	पदमेश दुवेदी	इंजिनियर्स	15 जून 2016
67375	सुदर्शन बी	आर्टी	15 जून 2016
67376	संदीप देवइया के एस	ई एम ई	15 जून 2016
67377	सुनील कुमार	सिगनल्स	15 जून 2016

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
67378	गुंजन	आर्टी	15 जून 2016
67379	अभिनव लाल	आर्टी	15 जून 2016
67380	दुश्यंत सिंह	सिगनल्स	15 जून 2016
एस एल 04951	श्रीधर वी	एस एल ए पी टी सी	14 जून 2016
63247	अरविंद जैदली	इंजिनियर्स	14 जून 2016
67283	रजत शर्मा	इंजिनियर्स	15 जून 2016
65291	अनुपम चौरे	जैग	03 नवम्बर 2015 (वेतन एवं भत्ते 12 अगस्त 2016 से)

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं । ये पदोन्नती एस एल पी (सिव) सं०. 9367-9369/2011 जिसका शीर्षक सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पूनिया एवं अन्य है, के अंतिम निर्णय के शर्त पर दिया जाता है ।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले कर्नल

डब्ल्यू एस संख्या	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
00682	मेघना दवे	ए एस सी	07 सितम्बर 2016
00709	पुष्पा कापरी	ए एस सी	07 सितम्बर 2016

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म
72199	सुमित एस लहाने	एसी
72200	गौरव हृदया	इंफैंट्री
72201	योगेन्द्र काठायत	इंफैंट्री
72202	तुल बहादुर गुरुंग	इंफैंट्री
72203	वैभव कुमार मिश्रा	इंफैंट्री
72204	रोहित सलारिया	इंफैंट्री
72205	विक्रान्त धीमन	इंफैंट्री
72206	अनुज शर्मा	इंफैंट्री
72207	अजय धनिक	इंजीनियर्स
72208	प्रभात सिंह राना	इंफैंट्री
72209	सन्नी गुरुंग	इंफैंट्री
72210	रुद्रकुमार सी सुलीकेरी	आर्टी
72211	अभिषेक कुमार	सिगनल्स
72212	विकास यादव	इंफैंट्री
72213	रामप्रीत सिंह	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
72214	अविनाश साहनी	इंफैंट्री
72215	सिद्धार्थ मिश्रा	आर्टी
72216	विकास	ए ए डी
72217	सौरभ त्रिपाठी	इंफैंट्री
72218	परमजीत जाखर	इंफैंट्री
72219	सुजय संतोषकुमार घोरपडे	आर्टी
72220	सेतु विकास	आर्टी
72221	काले मानस मधुकर	इंफैंट्री
72222	विजेश कुमार	इंफैंट्री
72223	रविन्दर सिंह	ई एम ई
72224	गिरीश कुमार बी वी	मैक
72225	विवेक सुभाष कालुखे	एसी
72226	गरजिन्दर सिंह	आर्टी
72227	अंशुमान गैरोला	इंफैंट्री
72228	चित्रे वैभव प्रकाश	एओसी
72229	कार्तिकेय मनराल	इंफैंट्री
72230	प्रियंक पुरी	आर्टी
72231	अशोक जाखर	इंफैंट्री
72232	शिंदे श्रीकांत पंदारीनाथ	आर्टी
72233	अंकित मिश्रा	इंफैंट्री
72234	बी सर्वानान	इंफैंट्री
72235	माधव बसवराज इलीगर	आर्टी
72236	मनीष कुमार राय	आर्टी
72237	अभय शर्मा	आर्टी
72238	रवि प्रकाश सिंह	इंफैंट्री
72239	पालुगुल्ला मस्तानरेड्डी	इन्ट
72240	अनादि ज्योति सिंह	आर्टी
72241	रोबिन ठाकुर	आर्टी
72242	पुष्कर बासु	आर्टी
72243	शकिल अहमद	आर्टी
72244	स्नेहित निरंजन गवांडे	ए ए डी
72245	पुजम मनहास	इंफैंट्री
72246	प्रवीण कुमार सिंह	आर्टी
72247	लामा विकास	ए एस सी
72249	मनीत कुमार पंत	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
72250	तेजस भारत देशपांडे	इंफैंट्री
72251	महाकाला श्रवण कुमार	इंफैंट्री
72252	नितिन धानिया	इंफैंट्री
72253	नवीन सिरुडकर	ई एम ई
72254	अजय सिंह पठानिया	ए एस सी
72255	विनीत कुमार	आर्टी
72256	बारिडे तनमय मुकुंद	एसी
72257	श्रीराम भामू	इंफैंट्री
72258	अवनित कुमार	इंफैंट्री
72259	निरज कुमार दुबे	ए ओ सी
72260	हेमन्त दत्ता	इंफैंट्री
72261	राज सिंह	आर्टी
72262	राजीव बोपचे	सिगनल्स
72264	ब्रिजेश कुमार	ए एस सी
72265	गौरव दाहिया	इंफैंट्री
72266	दीपक दलाल	इंजीनियर्स
72267	शरद सागर जोशी	आर्टी
72268	अविनाश कुमार	आर्टी
72269	रजत गौर	सिगनल्स
72270	गिरीश चंद्र जोशी	इंफैंट्री
72271	रंजीत सिंह	ए ए डी
72272	प्रितम प्रयदर्शी	इंफैंट्री
72273	अभिषेक शर्मा	ए एस सी
72274	आलोक कुमार सिंह	इंफैंट्री
72275	पलविन्दर सिंह	ए एस सी
72276	धिरेन्द्र प्रताप सिंह	इंफैंट्री
72277	सुशांत राय	इंफैंट्री
72278	शिखर त्यागी	आर्टी
72279	सौरभ	आर्टी
72280	निखिल झा	इंजीनियर्स
72281	अभिजीत सिंह	इंफैंट्री
72282	नवजोत सिंह	आर्टी
72283	संगमेश शिवाबसप्पा मोले	इंफैंट्री
72284	निश्चल भारद्वाज	ए ओ सी
72285	शर्मा बलजीत जगन्नाथ	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
72286	गौरव तिवारी	ए सी
72288	अलियार ए	इंफैंट्री
72289	विपिन बैस	इंफैंट्री
72290	राकेश सिंह	इंफैंट्री
72291	अनुभव शर्मा	आर्टी
72292	अंकित सिंह	ए सी
72293	अंबेश भास्कर	मैक
72294	रोहित कुमार	आर्टी
72295	स्नेह कुमार	आर्टी
72296	आतिश शर्मा	इंफैंट्री
72297	तजवीर कादियान	ए ओ सी
72298	अनमोल कुमार	ई एम ई
72299	राहुल वर्मा	मैक
72300	पवन भारद्वाज	इंफैंट्री
72301	सुयोग गोवर्धन खादातकर	आर्टी
72302	सावंत शौनक सुशील	ए ई सी
72303	रनदीप सिंह रंधावा	इंफैंट्री
72304	संदीप सिंह	आर्टी
72305	निखिलेश कुमार साहू	आर्टी
72306	साहिल दुआ	ई एम ई
72307	वि राहुल सक्सेना	इंफैंट्री
72308	पवन कुमार दुबे	इंजीनियर्स
72309	करण खन्ना	आर्टी
72310	राजीव रंजन राय	ए एस सी
72311	अमन लाम्बा	इंफैंट्री
72312	सागर बसतिया	इंफैंट्री
72313	रोहन सिंह रावत	इंफैंट्री
72314	सौरभ सिद्धार्थ	इंफैंट्री
72315	महावीर प्रसाद	ए वी एन
72316	अर्नव आनंद सानयाल	आर्टी
72317	यशोवर्द्धन भाटी	इंफैंट्री
72318	दिलीपु कुमार सानापाला	मैक
72319	राघवेन्द्र सिंह राठौर	ए ए डी
72320	जिगमेट सिंगे	इंफैंट्री
72321	ध्रुव वशिष्ट	ए एस सी

आई सी सं	नाम	आर्म
72322	अभिषेक शर्मा	इंफैंट्री
72323	निखिल तेओतिया	आर्टी
72324	दीपक सिंह मेहता	इंफैंट्री
72325	अंकित ठाकुर	आर्टी
72327	कुणाल शर्मा	इंफैंट्री
72328	वलापरला विद्या सागर राव	इंफैंट्री
72329	वासुदेव दामोदर अवारी	आर्टी
72330	देवेन्द्र सिंह	इंफैंट्री
72331	अनुराग द्विवेदी	इंफैंट्री
72332	अमित एस भारद्वाज	ए ओ सी
72333	हरीश ठाकुर	इंफैंट्री
72334	गौरव कुमार थपलियाल	इंफैंट्री
72335	संदीप कुमार जाखर	ए ओ सी
72336	बीनू वी एस	इंजीनियर्स
72337	संतोष कुमार पांडे	मैक
72338	बसंत कुमार विश्वकर्मा	इंफैंट्री
72339	विनोद चंद्र नोरकी	ए सी
72340	देवांशु पालीवाल	आर्टी
72341	वेद प्रकाश	ए ए डी
72343	अनुपम प्रजापति	इंफैंट्री
72344	अनिमेश कुमार झा	ई एम ई
72345	तोसिकाबा	इंट
72346	कुमार ऋषभ	इंफैंट्री
72347	अमित कुमार तोमर	ए सी
72348	आशुतोष कुमार	सिगनल्स
72349	विनोद धनकर	आर्टी
72350	अहमद पाशा	इंफैंट्री
72351	कुलदीप सिंह	इंफैंट्री
72352	दीपक कुमार सिंह	आर्टी
72353	अमित कुमार सिंह	आर्टी
72354	मंगेश्वर सिंह	इंफैंट्री
72355	दिनेश खांदेराव काम्बले	ए एस सी
72356	अरुण भारद्वाज	आर्टी
72357	निरज परमार	इंजीनियर्स
72358	सुशील बिष्ट	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
72359	संदीप कुमार	इंफैंट्री
72360	रंधिश्वर सिंह	इंफैंट्री
72361	आमोद कुमार	ए एस सी
72362	विकास पंघाल	ए सी
72363	सुमित कुमार महता	इंफैंट्री
72364	तपोस बसु	ए एस सी
72365	कवि कश्यप मिथिलाजी	ए ए डी
72366	राज कमल	आर्टी
72367	मोहित सिंह	आर्टी
72368	नन्हा दुर्गेश	आर्टी
72369	अंशुल कुमार यादव	इंफैंट्री
72370	लिजू आर	इंफैंट्री
72371	अरुण कुमार पांडे	इंफैंट्री
72372	सोनुप कुमार त्रिपाठी	आर्टी
72373	ब्रेश सिंह	ए सी
72374	संजेश ख्यालिया	इंफैंट्री
72375	रंजीथ आर	ई एम ई
72376	मो रजा हुसैन आजाद	ए एस सी
72377	सत्या जीत	ए ओ सी
72378	धर्मेन्द्र पांडे	ई एम ई
72379	सचिन कुमार अग्रवाल	इंफैंट्री
72380	प्रितम कुमार	इंजीनियर्स
72381	युधवीर सिंह तखर	आर्टी
72382	चंदन सिंह	इंफैंट्री
72383	राकेश सिंह	इंफैंट्री
72384	आनंद स्वरुप	मैक
72385	नरेन्दर सिंह	इंफैंट्री
72386	अमरेश	ए ओ सी
72387	अमर कांत शर्मा	आर्टी
72388	अभिनव भारद्वाज	इंफैंट्री
72389	मेहताब सिंह खताना	इंफैंट्री
72390	प्रवीण कुमार	इंफैंट्री
72391	अनुज कुमार	इंफैंट्री
72392	आदित्य सिन्हा	ए एस सी
72393	अमित थापा	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
72394	उमेश श्रीवास्तवा	आर्टी
72395	करुणाकर उपाध्याय	आर्टी
72396	राहुल मलिक	ए एस सी
72397	रोहन नंदल	ए ओ सी
72398	एस बालासुब्रमनियन	इंफैंट्री
72399	विवियन लजारुस	सिगनल्स
72400	अजय पाल सिंह मान	ए सी
72401	विजेंद्र पाल सिंह	आर्टी
72402	राकेश रंजन	इंफैंट्री
72404	राधाकृष्णन पी	इंफैंट्री
72405	सुमित लुहाच	इंफैंट्री
72406	सिद्धार्थ सामंत	आर्टी
72407	रोहिन आनंद	आर्टी
72408	क्षितिज खरे	आर्टी
72410	देवेश सिंह	इंफैंट्री
72411	मयंक भारद्वाज	ए ओ सी
72412	पंकज चंद ठाकुर	इंजीनियर्स
72413	प्रियदर्शी	ए ए डी
72414	निखिल पारगल	आर्टी
72415	अमित कुमार यादव	इंफैंट्री
72416	नवीन कुमार बोहरा	आर्टी
72417	अभिषेक कुमार	इंफैंट्री
72419	महाबीर सिंह	इंफैंट्री
72420	हरिश गर्ग	आर्टी
72421	जयवीर सिंह	ए वी एन
72422	दिलबाग सिंह	आर्टी
72423	विपिन मेनन	ए ए डी
72424	सतीष कुमार आर	इंजीनियर्स
72425	अंकुर चौधरी	इंफैंट्री
72426	सुरेश भट्ट	आर्टी
72427	रोहित शर्मा	इंफैंट्री
72428	दिव्यदर्शन	इंफैंट्री
72429	अजय कुमार	ए सी
72430	सोमवीर सिंह	आर्टी
72431	पंच देव सिंह	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
72432	प्रियंक उपाध्याय	इंफैंट्री
72433	कुल प्रसाद चेत्री	ए ओ सी
72434	दोंगल थोंगुलेन हाओकिप	इंफैंट्री
72435	रविन्दर सिंह कुंतल	आर्टी
72436	अरविन्द कुमार	इंजीनियर्स
72437	सौरभ काला	आर्टी
72438	विकास गुरुंग	इंफैंट्री
72440	अंकुर सक्सेना	इंफैंट्री
72441	रवीश कुमार	इंफैंट्री
72442	महादेव संजय सूर्यवंशी	आर्टी
72444	हरिलुइस गोपालकृष्णन	इंफैंट्री
72445	अजय चांबियाल	इंफैंट्री
72446	विवेक कृष्णा पैनुली	इंफैंट्री
72447	आशीष कुमार	आर्टी
72448	अरुण कुमार शर्मा	इन्ट
72449	अमित कुमार सैनी	इंफैंट्री
72450	क्षितिज मिश्रा	ई एम ई
72451	तरुण वाधवा	आर्टी
72452	रवि ढाका	मैक
72453	सुबोध कुमार गंगवार	ए एस सी
72454	हरेन्द्र कुमार	इंफैंट्री
72455	विकास कुमार	इंफैंट्री
72456	अभिषेक कुमार सिंह	सिगनल्स
72457	नागरे आशीर्वाद राजाबाबू	इंफैंट्री
72458	अमित कुमार	इंफैंट्री
72459	कुलदीप शर्मा	ए सी
72460	रितेश रॉय	आर्टी
72461	कैवलजीत सिंह बुधवार	इंफैंट्री
72462	शिल्पम भराली	इंजीनियर्स
72463	सौरभ लाहिरी	आर्टी
72464	बिभांशु ढोंडियाल	इंफैंट्री
72465	अतुल श्रीवास्तवा	ए ए डी
72466	विनयाकुमार वी	इंफैंट्री
72467	राधारमन गोस्वामी	आर्टी
72468	शेट्टी गौरव मोहन	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
72469	अरुण पांडे	ए वी एन
72470	अमित जसरोटिया	आर्टी
72471	प्रणब प्रभात	इंफैंट्री
72472	दीपेन्द्र मिश्रा	इंफैंट्री
72473	गुरिन्दर राना	आर्टी
72474	राजकुमार सांगवान	ए ओ सी
72475	पंकज उपाध्याय	आर्टी
72476	विवेक सिंह	आर्टी
72477	राहुल	ए एस सी
72478	अभिषेक शर्मा	ए ओ सी
72479	सचिन कुमार	इंफैंट्री
72480	योगेश हुडा	इंफैंट्री
72481	पंकज त्यागी	ए सी
72482	अर्पित रमन	इंफैंट्री
72483	संभाशिवा राव कोरापति	इंफैंट्री
72484	करण गोस्वामी	ई एम ई
72485	अमित करनपुरिया	इंफैंट्री
72486	बासबराज वी माथापति	ए एस सी
72487	दीपांशु चौधरी	आर्टी
72488	दीपक जोशी	इंफैंट्री
72489	मुबाराकलि बी मुजवार	ए सी
72490	राजाशेखर बिनुमोन	इंफैंट्री
72491	रवि पंवर	ए ओ सी
72492	अरविन्द रावत	ए ए डी
72493	अजय पांडे	ए ओ सी
72494	आस्तिक कुमार	इंफैंट्री
72495	अनुराग बिष्ट	इंफैंट्री
72496	आदर्श दुबे	आर्टी
72497	अभय राना	आर्टी
72498	अमित सिंह	इंफैंट्री
72499	थापर हरिश प्रकाश	आर्टी
72500	वरुण जसवाल	इंजीनियर्स
72501	अनुभव तिवारी	ए एस सी
72502	पंकज	आर्टी
72503	नवीन सिंह	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
72504	रवि रंजन कुमार	इंफैंट्री
72505	दीपक सिंह	इंफैंट्री
72506	सतीष कुमार यादव	इंफैंट्री
72507	अरविन्द शर्मा	ए एस सी
72508	राहुल चौहान	आर्टी
72509	अभिजीत शर्मा	आर्टी
72511	अभिषेक	इंट
72512	रवि थापा	मैक
72513	जितेन्द्र राठौर	ए सी
72514	दिग्विजय सिंह चौहान	ई एम ई
72515	अविनाश कुमार	आर्टी
72516	शाजी पी वी	ए एस सी
72517	सज्जाद अहमद	आर्टी
72518	आशीष पांडे	इंफैंट्री
72519	शुभम अग्रवाल	ए ए डी
72520	साहिल छिकारा	ए ओ सी
72521	सुरेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स
72522	पंकज शर्मा	इंफैंट्री
72523	दीपक सिंह ठाकुरी	इंफैंट्री
72524	विकास सिंह बसेरा	आर्टी
72525	के एस सूरज	आर्टी
72526	सुरिन्दर कुमार	आर्टी
72527	बिक्रम सिंह बादल	आर्टी
72528	विनोद कौशल	इंफैंट्री
72529	गुरइकबाल परमजीत सिंह	इंफैंट्री
72530	अर्पित शर्मा	सिगनल्स
72531	विक्रम यादव	मैक
72532	आदित्या	आर्टी
72533	मनीष कुमार पाठक	आर्टी
72534	राहुल शुक्ला	इंफैंट्री
72535	विधान सुनवर	इंफैंट्री
72536	साकेत रंजन	इंफैंट्री
72537	संदीप राठी	इंफैंट्री
72538	गौरव चवन	इंफैंट्री
72539	वरुण शर्मा	ए सी

आई सी सं	नाम	आर्म
72540	मुकेश कुमार	मैक
72541	राकेन्दु उपाध्याय	ए एस सी
72542	अमित साह	इंफैंट्री
72543	एस अरुण	इंफैंट्री
72544	अंकित भिष्मा	इंजीनियर्स
72545	अजय कुमार	आर्टी
72546	पंकज कुमार पांडे	इंफैंट्री
72547	दविन्दर पाल सिंह	इन्ट
72548	लॉकर अश्विन रमेश	ए ए डी
72549	अर्जुन दास ए	इंफैंट्री
72551	सिमथेश कुमार दलाल	इंफैंट्री
72552	विनोद कुमार के एस	ए एस सी
72553	पवन कुमार	इंफैंट्री
72554	हिमांशु पुरोहित	इंफैंट्री
72556	नितेश कुमार	इंफैंट्री
72557	जयंत सिंह बालयान	सिगनल्स
72558	रौत तुषार अशोक	इंफैंट्री
72559	डी मैडोना इनरिच	आर्टी
72560	बिभूति भूषण पाणिग्रही	ए एस सी
72561	अविनाश कुमार श्रीवास्तवा	आर्टी
72562	निखिल कुमार	आर्टी
72563	ए विजय कुमार	इंफैंट्री
72564	साहिल जांगिर	इंफैंट्री
72565	हेमचंदर सिंह	इंफैंट्री
72566	अनुराग राजावत	ई एम ई
72567	अनिल कंडपाल	इंजीनियर्स
72568	शिव प्रताप सिंह	इंफैंट्री
72569	अभिषेक कुमार	आर्टी
72570	भुपेन्द्र पाल सिंह	इंफैंट्री
72571	हरि नील वरुण शर्मा	आर्टी
72572	मनीष तोमर	इंफैंट्री
72573	भारत सिंह	इंफैंट्री
72575	प्रियरंजन कुमार ठाकुर	ए सी
72576	ब्रिज भूषण वर्मा	ए सी
72577	भरत शर्मा	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
72578	अभिनव त्रिपाठी	इंफैंट्री
72579	अभिषेक कुमार तिवारी	इंफैंट्री
72580	बन्नी शर्मा	ए एस सी
72581	अभय राठौर	ए ए डी
72582	राहुल कुमार अल्ले	इंफैंट्री
72583	सुमित खजुरिया	इंफैंट्री
72584	मनतव्य कुमार	इंफैंट्री
72585	सवाले अनुपम श्रीकांत	आर्टी
72586	रोहित कुमार राय	इंफैंट्री
72587	पारितोष सिंह कंवल	इंफैंट्री
72588	रंजीत भांबू	ई एम ई
72589	रंजन थापा	ए ओ सी
72590	अनिरुद्धा चक्रवर्ती	इंफैंट्री
72591	ओकराम पापु सिंह	इंफैंट्री
72592	अमन महंत	ए ओ सी
72593	गिरि विकास राजेन्द्रा	आर्टी
72594	अंकित शर्मा	सिगनल्स
72595	योगेन्द्र गुरुंग	आर्टी
72596	हंदीप राज पुरी	आर्टी
72597	तिजु थोमस	इंफैंट्री
72598	रविरंजन कुमार सिन्हा	आर्टी
72599	जतिन गंभीर	इंफैंट्री
72600	वेंकट शरद	ए एस सी
72601	गार्गे केदार पद्माकर	आर्टी
72602	दलजीत सिंह	मैक
72603	विक्रम सिंह राठौर	इंफैंट्री
72604	अंशुल यादव	ए सी
72605	आकाश राज	आर्टी
72606	शिवा गुरुंग	आर्टी
72607	धिरेन्द्र सिंह राघव	ई एम ई
72608	अर्नव बहुगुणा	इंजीनियर्स
72609	संदीप वर्मा	इंफैंट्री
72610	नवजीत सिंह	ई एम ई
72611	शैलेश कुमार यादव	सिगनल्स
72612	जितेन्द्र सिंह रमोला	इंजीनियर्स

आई सी सं	नाम	आर्म
72613	नवीन कुमार	ए ए डी
72614	सिद्धार्थ कटियार	इंजीनियर्स
72615	सुशील कुमार	ए सी
72616	सुदीप मजुमदार	इंफैंट्री
72617	रक्षित शर्मा	ई एम ई
72618	चंदन कुमार	ई एम ई
72619	रास श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स
72620	इंदिरा कुमार साहु	सिगनल्स
72621	रौनक मलिक	सिगनल्स
72622	चंचल शर्मा	इंफैंट्री
72623	लोहित अहोम	इंजीनियर्स
72624	उदय वीर सिंह	ई एम ई
72625	निमिष सांबयाल	इंफैंट्री
72626	रवि शंकर शुक्ला	ई एम ई
72627	प्रकाश रायकवार	आर्टी
72628	संदीप कुमार	इंजीनियर्स
72629	कुलहदय सिंह भल्ला	सिगनल्स
72630	प्रशांत सिंह	सिगनल्स
72631	अमरनाथ पॉल	इंजीनियर्स
72632	सुदेश प्रताप सिंह	ई एम ई
72633	वरुण दीक्षित	आर्टी
72634	अमित डिमरी	इंफैंट्री
72635	पी अरविन्द	इंजीनियर्स
72636	के सरवाना कुमार	सिगनल्स
72637	अरुपनंदा साहु	ए सी
72638	अमित कुमार	ए एस सी
72639	मोहित मलिक	इंजीनियर्स
72640	डीशूजा एलेन अलबर्ट	इंजीनियर्स
72641	विशाल शर्मा	सिगनल्स
72642	कमल जांगिड	मैक
72643	सलभ भटनागर	आर्टी
72644	पुरुषोत्तम कुमार रजनीश	सिगनल्स
72645	भुवन चंद्र जोशी	इंजीनियर्स
72646	अशोक कुमार छिकारा	आर्टी
72647	पंकज कुमार तिवारी	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
72648	अभिषेक शहरावत	ई एम ई
72649	दीपक चौहान	सिगनल्स
72650	आशीष द्विवेदी	सिगनल्स
72651	जोयदीप चौधुरी	इंफैंट्री
72652	घनेकर विश्वजीत श्रीप्रकाश	सिगनल्स
72653	जतिन शर्मा	इंफैंट्री
72654	हर्षित चहार	ए एस सी
72655	एस विगनेश	इंफैंट्री
72656	राघव पांडे	ई एम ई
72657	यशवीर सिंह	इंफैंट्री
72658	जागेश्वर उनियाल	आर्टी
72659	वेद प्रकाश	सिगनल्स
72660	यशु त्रिपाठी	ई एम ई
72661	गौरव कुमार	सिगनल्स
72662	रोहित डी सापरे	इंजीनियर्स
72663	शंभू कुमार सिंह	इंट
72664	डैली फ्रैन्सिस	इंजीनियर्स
72665	बिबियन भुवनेन्द्रन	इंफैंट्री
72666	अंकित जून	ई एम ई
72667	चित्रेश बिश्ट	इंजीनियर्स
72668	वरुण सिंह	इंजीनियर्स
72669	जय सिंह सोलंकी	इंफैंट्री
72670	चिन्मय नंदन घोष	इंजीनियर्स
72671	रमेश कुमार आर	ई एम ई
72672	जाधव धीरज भारत	इंजीनियर्स
72673	प्रमोद कुमार त्रिपाठी	इंजीनियर्स
72674	दुश्यंत राठी	सिगनल्स
72675	दीपांकन शर्मा	ए ए डी
72676	मोइरंगथेम फुनिलकांता सिंह	इंजीनियर्स
72677	मस्तानवाली शैक	ई एम ई
72678	अमरदीप सिंह	ई एम ई
72679	भारतेन्द्र कौशिक	ई एम ई
72680	उपरेती सुर्यमधुर दीपचंद्रा	इंफैंट्री
72681	हुइदरोम निरंजन सिंह	सिगनल्स
72682	प्रखर त्रिपाठी	ए सी

आई सी सं	नाम	आर्म
72693	श्रीनिवासन सुंदर राज	ए ई सी
72698	संदीप चंद	एम एफ

—12 जून 2016

पर्सनल सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी 66563	अंबरिश महंता	इंफैन्ट्री	17—अप्रैल—12
आई सी 71780	दिनेश पुनिया	ए सी	12—दिसम्बर—15
आई सी 72093	आनंद एस	इंजीनियर्स	12—दिसम्बर—15
आई सी 72287	विरेन्द्र पाल सिंह देवरा	आर्टी	12—जून—16
आई सी 72403	सिद्धार्थ सिन्हा	इंफैन्ट्री	12—जून—16
आई सी 75758	मेहुल ओ अस्नानी	इंजीनियर्स	14—जून—15
एस एल 05008	सिद्धार्थ टी रामचंद्रन	ए ई ई/ई एम/आई ई एम	24—जुलाई—15
एस एल 05010	किताब सिंह रांगी	ए ई ई/बी आर/ए एस डब्ल्यू	24—जुलाई—15
एस एस 43646	भगवती सिंह राठौर	ए ओ सी	19—अप्रैल—16
एस एस 43665	रोहित कुमार	ए एस सी	19—अप्रैल—16
एस एस 43671	अजय कुमार	इंजीनियर्स	19—जुलाई—16
एस एस 43686	सिद्धार्थ विश्वनाथन	इंफैन्ट्री	19—अप्रैल—16
एस एस 43694	निरज खत्री	इंफैन्ट्री	19—अप्रैल—16
एस एस 43766	अभिषेक	ए ओ सी	19—अप्रैल—16
एस एस 43767	रुविना कौर	इंट	19—अप्रैल—16

आई सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
73301	किशन सिंह	ए सी	17 अक्टूबर 14
73451	अजीत भारद्वाज	आर्टी	22 अप्रैल 15
73453	प्रणव उपाध्याय	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 15
73454	मधुर शुक्ला	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 15
73456	सनराम सिंह	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 15
73618	अंजेश कुमार यादव	ई एम ई	22 अक्टूबर 2015
73621	रविन्दर कुमार	ई एम ई	22 अक्टूबर 2015
73623	अनीश सिंह तूर	इन्फैन्ट्री	22 अक्टूबर 2015
73624	वरुण त्रिशाल	आर्टी	22 अक्टूबर 2015
73625	वरुण राव	इन्फैन्ट्री	22 अक्टूबर 2015
73662	अभिनन्दन	आर्टी	20 अप्रैल 2015

आई सं	नाम	आर्म
69578	विकल्प पुरोहित	इंजीनियर्स

—12 जून 2011

नियमित सेना

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

एस सी सं	नाम	आर्म
00613	तारिक अहमद मंगराल	ए ओ सी
SL-05264 (SC-00614)	पीटर जॉन	इंजीनियर्स
00615	पवन सिंह	इंफैंट्री
00616	प्रशांत थापा	ए एस सी
00617	कैलाश मल्ला	इंफैंट्री
00618	मानविरेंद्र सिंह गोसाईं	आर्टी
00619	अनुप थापा	इंफैंट्री
00620	पारितोष कुमार सरकार	इंट
00621	गुरुंग सागर	इंफैंट्री
00622	रमेश सिंह	मैक
00623	राम स्वरूप	ए सी
00624	श्याम कुमार यादव	ए ए डी
00625	अमित थापा	इंफैंट्री
00626	शमशेर सिंह	इंजीनियर्स
00627	सजेत जोसेफ	आर्टी
एस एल.05397 (एस सी.00628)	अनिल कुमार रोहिल	आर्टी

—12 जून 2016

नियमित सेना

स्पेशल लिस्ट कमीशन

कप्तान से मेजर

एस एल नं.	नाम	आर्म
05119	सुभाष चंद्र रे	एस एल एएसडब्ल्यू
05120	एलविस जोसेफ कुटिन्हा	ई एम ए ई
05121	राम पाल	एस एल आईईएम
05122	एम मुरुगन	एस एल आर ओ
05123	राजीवन के टी	एस एल आर ओ
05124	सजल कांति दास	एस एल आर ओ
05125	सोहन सिंह	एस एल आर ओ
05126	मदन मोहन	एस एल आर ओ
05127	पन्ना लाल	एस एल आर ओ

एस एल नं.	नाम	आर्म
05128	राजनाथ सिंह	एस एल आर ओ
05129	शिवराजन एस	एस एल आर ओ
05130	अरविन्द कुमार	एस एल आर ओ
05131	सतीष कुमार	एस एल आर ओ
05132	ए अरोकिया दोस	एस एल आईईएम
05133	राधेश्याम सिंह	एस एल आर ओ
05134	बलाजी गुब्बाला	एस एल आर ओ
05135	कंचन सिकदर	एस एल आर ओ
05136	भारत डी पी	एस एल आर ओ
05137	बलवंत सिंह	ई एम ए ई
05138	राजवीर सिंह	एस एल आर ओ
05139	कुलविन्दर सिंह	एस एल आर ओ
05140	इमतिनुंगटोक एओ	एस एल आर ओ
05141	अद्दापल्ली वेंकटा गौतम नायडू	एस एल आर ओ
05142	तरुण कुमार यादव	एस एल आर ओ
05143	उमेद सिंह	एस एल आर ओ
05144	गुरबचन सिंह	एस एल आर ओ

—30 अगस्त 2016

नियमित सेना
अल्पकालीन सेवा कमीशन
कप्तान से मेजर

एस एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
43828	बिक्रम जीत	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43830	पंकज बलुरिया	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43831	वरिन्दर सिंह	ए ओ सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43833	पियुष कुमार पांडे	मैक	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43835	टेरेन्स पी गोन्सालवेस	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43836	पेटा महेश	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43837	मुनीष वर्मा	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43838	मोहनाप्रियन टी	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43839	पारस सामंत	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43840	सुभाष चंद	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43841	मधुर उपाध्याय	इंजीनियर्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43845	संदीप देवरानी	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43847	परमजीत सिंह	ई एम ई	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16

एस एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
43848	कुमार आतिश शशि	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43849	त्रिभुवन सिंह चंदेल	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43850	चिथाडे त्रिषिकेश योगेश	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43852	एम ई श्रीनीधि	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43853	आकाश शर्मा	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43854	जयकृष्णा एस	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43856	पनमेई कबीफुन	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43858	विरेन्द्र सिंह नाथावत	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43859	अतुल चंद्रा	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43860	जगन्नाथ पौडयेल	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43861	विवेक शर्मा	सिगनल्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43862	समीर एम एस	सिगनल्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43863	अभिनव कुमार	ए ए डी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43866	शिवेन्द्र मनी त्रिपाठी	ए ओ सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43867	करन सिंह चिब	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43868	सचिन दिलीप पवार	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43869	विकल प्राशर	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43870	लेंगोसेम के गांगटे	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43871	संदीप कुमार	इंजीनियर्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43873	निलेश केवल सूर्यवंशी	इंजीनियर्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43874	के पी राजिल प्रेमराजन	ई एम ई	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43875	संजीव कुमार	मैक	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43877	नितीन शर्मा	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43878	रमनदीप सिंह धंजल	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43879	ठाकुर नितीनकिशोर	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43880	कुणाल ए सेठी	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43881	मिथिलेश कुमार उपाध्याय	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43882	सचिदानन्द द्विवेदी	ए ए डी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43883	त्रिलोक कुमार टी	सिगनल्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43885	हरिनाम सिंह	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43887	डेविड मनलुन	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43888	विश्वदीप सिंह	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43889	जय दत्त भट्ट	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43890	अरुण राजन	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43891	विन्सेन्ट वी खियांगटे	इन्फैंट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16

एस एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
43892	अतुल शर्मा	इंट	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43894	प्रदीप कुमार	ई एम ई	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43895	योगेश गुरुंग	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43896	गंगाधर साई के	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43897	मुकेश कुमार	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43898	गौरव चमोली	ई एम ई	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43899	कमलजीत सिंह	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43901	अंशुल बिष्ट	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43902	अभिजीत सिंह राठौर	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43903	पाटिल प्रहलाद	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43904	अल्पेश सिंह	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43907	विकास पाडे	ए वी एन	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43908	पंकज कुमार सिंह	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43910	ईश्वर पाल	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43911	रविन्द्र सिंह शेखावत	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43912	प्रदीप शर्मा	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43913	पवन कटारिया	ए ओ सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43914	अमन राठौर	सिगनल्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43916	सन्नी कुमार सांगरिया	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43917	अनुज कुमार	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43919	आशीष चौहान	आर्टी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43920	दिवेश खानका	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43921	विशन प्रताप सिंह भदौरिया	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43922	विक्रान्त राजे भोंसले	ए सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43923	कुलकर्णी अक्षय निशीकांत	ई एम ई	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43925	रवि दत्त यादव	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43926	अर्जुन विश्वेस्वरनराम	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43929	वरुण सिंह	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43930	शक्ति सिंह शेखावत	मैक	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43931	अंकुर पाल	इन्फैट्री	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43932	विजय कुमार शर्मा	इंजीनियर्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43935	गगनदीप सिंह	ए ओ सी	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43937	अजय उपाध्याय	इंजीनियर्स	20 मार्च 10	एस एस सी-89 (एन टी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16

अल्पकालीन सेवा कमीशन (एस एस सी डब्ल्यू)
कप्तान से मेजर

एस एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
43832	अंबिका जोधा	एएडी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43834	स्वर्णिमा थपलियाल	ईएमई	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43843	आकांक्षा मिश्रा	इंट	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43844	मोनिका जार्ज	एओसी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43846	सविता गढ़वाल	ए वी एन	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43855	शिपाली साही	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43865	मोनिका मल्ल	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43872	स्नेहा गुरुंग	एओसी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43884	प्रियंका कुमारी सिंह	ए ई सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43886	निधी	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43900	कृतिका कंवल	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43905	शिव कुमारी	ए ई सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43906	श्रुति कृति राघव	ए एस सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43909	नीति सी जे	इंट	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43924	मर्सी किमपुई	एओसी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43927	अंजू बाला	एओसी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43928	रितु थपलियाल	ईएमई	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16
43933	शिवानी सिंह	ए ई सी	20 मार्च 10	एस एस सी डब्ल्यू-03 (एनटी)	20 अक्टूबर 10	20 अक्टूबर 16

स्थायी कमीशन
ले. से कप्तान

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
73301	किशन सिंह	ए सी	17 अक्टूबर 2010
73451	अजित भारद्वाज	आर्टी	22 अप्रैल 2011
73453	प्रनव उपाध्याय	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 2011
73454	मधुर शुक्ला	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 2011
73456	संग्राम सिंह देओरा	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 2011
73618	अनजेश कुमार यादव	ई एम ई	22 अक्टूबर 2011
73621	रविन्दर कुमार	ई एम ई	22 अक्टूबर 2011
73623	अनिश सिंह तूर	इन्फैन्ट्री	22 अक्टूबर 2011
73624	वरुण त्रिसाल	आर्टी	22 अक्टूबर 2011
73625	वरुण राव	इन्फैन्ट्री	22 अक्टूबर 2011
73662	अभिनन्दन	आर्टी	20 अप्रैल 2011

आई सी सं.	नाम	आर्म
77934	शैलेन्द्र सिंह कुशवाह	ए सी
78009	सुनील कुमार बेहेरा	सिग्नल्स

—08 जून 2015

78836	सौरभ दास	ए ए डी
78866	आमले देवीदास त्रिमबक	इंट
78899	ऐश्वर्या रंजन	आर्टी
78914	राहुल कुमार	इन्फैन्ट्री

—14 दिसम्बर 2014

79432	एम मनोज कुमार	ए एस सी
79501	महेश कुमार आनंद्रया भुरे	इंजिनियर्स

—14 जून 2015

80121	सचित शर्मा	ए सी
80136	साहिल अरोड़ा	आर्टी
80142	प्रिस कुमार पाठक	इन्फैन्ट्री
80164	अतुल त्यागी	ई एम ई
80169	शगुन राना	इन्फैन्ट्री
80170	नमन कपूर	इन्फैन्ट्री

—15 दिसम्बर 2015

स्थायी कमीशन (एस. एल.)

ले. से कप्तान

एस एल सं०	नाम	आर्म
05312	इग्नेश टिकोए वीएसएम	एस एल ए पी टी सी
05313	सी बी जोसफ	टी ई ओ ए ए डी
05314	रहीम खान पठान	टी ई ओ ए ए डी
05315	पी महेश कुमार	आर ओ
05316	आनन्द सिंह	ए ई ई बी/आर एण्ड ए एस डब्ल्यू
05317	रंजीत सिंह	टी ओ एस टी
05318	अनिल कुमार	बी एस टी ई ओ
05319	जयन पि पि	टी ई ओ आर्टी
05320	नगाबूषणम एम	ए ई ई ई एम/ आई ई एम
05321	सुनील पी जोय	टी ओ एस टी
05322	विपिन मोहन्न	टी ई ओ आर्टी
05323	राजेश कुमार आर	आई ओ ए बी
05324	दिनेश कुमार दुबे	मास्टर एट आर्म्स (एपीटीसी)
05325	दिलबाग सिंह	आर ओ

एस एल सं०	नाम	आर्म
05326	अमृत पाल सिंह	आर ओ
05327	श्रीजित पी	ई डी एन ऑफिसर
05328	एस अनिल कुमार	आर ओ
05329	जितेन्द्र कुमार	आर ओ
05330	पपीन्दर सिंह	आर ओ
05331	अबदेश पाल	ई डी एन ऑफिसर
05332	मल्लवारापु टी एच डब्ल्यू राजू	आर ओ
05333	गोविन्द रामा सावन्त	आर ओ
05334	अमित मुखर्जी	आर ओ
05335	अमित कुमार	आर ओ
05336	शिवा प्रसाद मलिक	ई एम ए ई
05337	याबीज एम	आर ओ
05338	विजय सिंह	ई डी एन ऑफिसर
05339	पाटिल गणेश जोतीराम	आर ओ
05340	मान सिंह बिष्ट	आर ओ
05341	दिनेश कुमार	आर ओ
05342	शनमुगम जी	आर ओ
05343	गोपाल सक्सेना	आर ओ
05344	संदीप नेगी	ए ई ई बी/आर एण्ड ए एस डब्ल्यू
05345	संजय प्रताप सिंह जडॉयू	ई डी एन ऑफिसर
05346	अभिलाष एमसी	आर ओ
05347	लामिन्थांग सिंगसित	आर ओ
05348	हरीश चन्द्रा	आर ओ
05349	पंकज शर्मा	आर ओ
05350	एस आर जीवाकान्थन	ए ई ई बी/आर एण्ड ए एस डब्ल्यू
05351	हरजिन्दर सिंह	आर ओ
05352	समय सिंह	आर ओ
05353	प्रशांत एमपी	टी ई ओ ए ए डी
05354	राकेश कन्नोली	टी ई ओ ए ए डी

—07 अगस्त 2016

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48313	अंकुश कुमार शर्मा	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48316	शुक्ला अजयकुमार शेषनारायण	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48317	सचिन सिंह	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48319	अनिल कुमार ढांडा	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48322	राजकुमार	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48323	हर्षित मल्होत्रा	एविशन	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48327	अरुन एम	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48328	आदर्श रामा भट्ट	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48329	मनमोहन सिंह चौहान	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48330	नितेश पवाडिया	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48331	निशान्त डेविड जॉय	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48334	कार्तिक कुमार एस	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48335	प्रिन्स त्यागी	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48338	मोहम्मद मोहसिन खान कादरी	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48341	सुमित डोगरा	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48345	धवल सचदेवा	ए एस सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48349	शशिकान्त हेडगी	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48350	अभिनय यादव	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48351	अरुण कुमार	ए ओ सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48352	पुष्कर मल्होत्रा	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48353	प्रभजित सिंह ओबरॉय	मैक	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48356	विवेक कुमार यादव	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48357	तुषार मिश्रा	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48361	प्रदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48362	एस मनो विजय	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48363	इरेन्गबाम विशाल मीतेइ	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48364	मनीष चौधरी	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48365	वरुण आर आर	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48366	दक्षेय यादव	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48367	अंकित सारस्वत	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48368	षेक गौस पाषा	मैक	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48370	गौतम देवराज एस	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48371	मुकुल कुमार	ए ओ सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48373	शिवम् रावत	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48374	पुलकित खेडा	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48375	पंकज कुमार सिंह	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48377	चंद्र शेखर चौधरी	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48379	ऋषभ ठाकुर	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48381	हेज भाई	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48383	दीपक यादव	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48386	विनोद कुमार अे	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48390	शोभित चौधरी	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48393	प्रशांत जाजि	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48397	दीपरांजन यादव	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48398	केडीया जयदीप भगवती प्रसाद	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48401	नवजोत सिंह धालीवाल	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48406	राघुल ए	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48408	राजशेखर पी	आर्टी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48410	आलोक आनंद	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48411	पल्लव वैशंपायन	एविशन	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48414	करियप्पा पि पि	ए सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48416	अरुलमोलिवर्मन एम	ए एस सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48417	सिद्धार्थ रॉय	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48418	अभिषेक एस पाटिल	एविशन	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48420	अभिषेक चौहान	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48423	राहुल मिश्रा	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48424	शन्मुख कुमार	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48425	दीपांशु फर्त्याल	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48426	नमन लखोटिया	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48428	सनत ए	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48429	अविनाश अनंत	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48431	अंकुर आदित्य	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 43(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
47944	कुमार अभिषेक सिंह	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47970	रनदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
46723	आर रवि शंकर	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46760	तपकिरकर ओमकार चन्द्रशेखर	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46921	रतनाकर पाण्डेय	ए ओ सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46944	मनीष कुमार	आर्टी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
47102	अजय पाल सिंह	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47103	सोनू सिंह भदौरिया	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47105	राजीव मील	एविशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47107	सुदर्शन वी	एविशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47109	रजनी कान्त चौबे	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47110	शीतल सूद	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47111	अनीश कुमार	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47112	कृष्ण कान्त	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47115	कर्ण सिंह	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47116	रोएल मगंलेमजेल् नैहसील	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47117	सैमीकई कीपगेन	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47118	विनय नारायण सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47120	नरेन्द्र कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47121	मानस रंजन नायक	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47122	भूपेश रावत	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47123	बाल कृष्ण	मेक	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47124	अंकित कुमार सिरोही	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47125	रमेश एस	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47129	वी लाशीतो	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47130	दीपक कुमार	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47133	गौरव नेगी	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47134	भारत सिंह अधवारिया	इंजिनियर्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47135	साई गुरु रत्नाकरण एस	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47136	विजय कुमार औझा	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47138	अमरेन्द्र कुमार	इंजिनियर्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47142	तेजिन्दर पाल सिंह	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47143	राजीब छेत्री	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47145	नेतर सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47147	शर्मा अभीनीत दीपककुमार	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47148	एस रोहित	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47149	बी एस रैनी लुकसन	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47152	नैरम विवेकानन्द सिंह	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47153	पी धिलिपन	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47155	गगनदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47156	मयंक सिंह	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47159	पॉलालपॉल साम्ते	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47160	थांगजम डैनी सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47162	वीर बहादुर सिंह	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47163	बिन्नी थोमस मैथ्यु	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47164	अर्पित कपिला	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47165	कुमार गौरव	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47166	वैशाख दास	इंजिनियर्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47167	अनवर इजरायल	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47168	अंकुर सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47169	विजय कुमार शर्मा	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47170	हिमान्यु सिंह	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47171	रजत यादव	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47172	संचित गर्ग	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47173	भवानी प्रताप सिंह	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47174	पंकज कुमार	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47175	बरेतो स्टीव एन्थोनी	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47176	थापा तेज सिंह जसवन्त सिंह	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47177	सुनिल घिसिंग	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47178	परमीत सिंह छीपरा	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47179	हर्षण जी नीतिन	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47181	बगुल आशीष रामदास	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47182	अमीतेश दीक्षित	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47183	संदीप सिंह	सिग्नल्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47184	लक्ष्मी नारायण गिरी गोस्वामी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47185	रवि कुमार	मेक	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47186	अतुल अधिकारी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47187	सत्येन्द्र रावौर	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47188	पृथ्वीराज टी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47189	शाबीब ई	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47191	सौरभ बाली	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47192	सुमित कोच्चुमन	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47193	जय भगवान	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47194	अजय चाहर	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47195	कवीष अग्रवाल	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47196	अंकुर तिवारी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47197	कृतार्थ काला	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47198	प्रदीप एम	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47199	देव कुमार साहा	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47200	विकास सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47202	अंकित खजूरिया	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47203	विनय सिंह	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47204	अनुराग जी दुबे	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47205	विनीत शर्मा	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47206	मिसवा उल इस्लाम	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47207	स्पर्श यादव	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47208	बी विनोदकुमार	इन्ट	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47209	विष्णु एस पी	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47210	पवन अपटेकर	इंजिनियर्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47211	केस्वानी मनोज मोहनलाल	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47212	दिव्या सूद	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47213	दिवाकर कोंगबरायलतपम	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47214	अर्जुन सिंह	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47215	बाला सुब्रामनयन एस	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47216	सुमित कर्णधार	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47217	मेघानील बोरा	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47218	गुरुगो आशीष गोवीन्दप्रसाद	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47219	बादसा खान	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47222	प्रतीक चमोली	मेक	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47223	टी मांग मिन थांग	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47226	राहुल देवरानी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47227	जैश्रीन के वी	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47228	मानवेन्द्र सिंह चौहान	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47229	विक्रमजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47230	अवधेश	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47233	वानखेड़े राहुल अशोक	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47234	रोविन जोसेफ	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47235	माधव कुमार	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47236	उमर अलि एम	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47237	शिवराज उदयकुमार देशमुख	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47238	अभिनव द्विवेदी	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47239	करणी प्रताप सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47240	वसुदेव सहरावत	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47241	अनिरुद्ध सिंह	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47242	वातसल्य तिवारी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47243	मिचेल खुयालजलियान	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47244	राज पवितर सिंह	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47245	अमन कुमार बंसल	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47246	प्राग शर्मा	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47247	इसरार अली	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47249	अखिल यादव	मेक	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47250	विनीत गुरुंग	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47255	नीतीश यादव	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47256	भास्कर सिंह आर्या	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47260	राकेश कुमार वैश	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47263	शैलेश नायर	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47264	अभिमन्यु शर्मा	ए सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47265	शुषान्तो दास	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47266	वैभव रंजन	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47267	जैमसविन जानसन	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47268	अजय कुमार	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47269	राजन शर्मा	आर्टी	15 मार्च 14	एस.एस.सी. 97(एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47104	पवनी दूबे	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47106	दांडेकर मैत्रेई राजाराम	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47108	शुष्मिता गौर	एविएशन	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47113	नेहा श्रीवास्तव	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47114	पर्ल फोना फर्नान्डीस	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47126	कोमल राठोर	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47127	मृणाली श्रीवास्तव	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47128	चन्द्र प्रभा	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47131	नुपुर शेखावत	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47132	कनिका कुकरेती	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47137	रचनवा विक्रमसिंह जडेजा	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47139	अनु झझारिया	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47140	ज्योति यादव	सिग्नल्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47141	आर डी स्नेहा	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47144	प्रिया सेमवाल	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47146	ज्योती सैनी	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47150	स्नेहा बी सपकल	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47151	पूजा यादव	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47154	सोनिया कालिया	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47157	पाटिल तेजश्री जयसिंह	ई एम ई	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47158	एष्वर्या सिंह	ए ए डी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47161	शकुल सिंह	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47180	रीतिका	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47190	रोशनी कृष्णा	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47201	निकिता थोमस	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47220	मनप्रीत पन्नु	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47221	गुशीन डिल्लन	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47224	ऋचा कुमार	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47225	रीतिका गुप्ता	इन्ट	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47231	चेतना रानी	इंजिनियर्स	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47232	मानसी पाण्डेय	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47248	निशा गहलोत	इन्ट	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47251	करणिका सिंह	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47252	रवीना युमनाम	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47253	मालिनी नायर	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47254	अंजना श्रीवास्तव	सिग्नलस	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47258	अंजली गमता	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47259	प्रीती शर्मा	जैग	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47261	अन्शुला वर्मा	ए ओ सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47262	तरुणा एरी	ए एस सी	15 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 11 (एन टी)	15 अक्टूबर 14	15 अक्टूबर 16
47745	आकांक्षा अरोड़ा	सिग्नलस	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—12(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47949	सोनम निरौला	इंजिनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48324	सुस्मिता एस वारियर	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48333	शालिनी सिंह	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48339	प्राची शुक्ला	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48342	बबली पन्नू	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48354	श्वेता कंवर	सिग्नलस	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48392	जोषिका राय	इंजिनियर्स	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48404	पोलिसेट्टि सुमा	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48421	माधुरी शर्मा	ई एम ई	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16
48422	नीलम कुमारी	ए एस सी	14 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—14(टी)	14 अक्टूबर 14	14 अक्टूबर 16

अल्प-कालीन सेवा कमीशन

ले. से क्वासी-सब्सटेनटिव कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	क्वासी सब्सटेनटिव कप्तान दिनांक से
42735	अमन मलैकान	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016
42767	नीरज कुमार लथ	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016
42772	दिपांकर मल्लिक	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016
42806	विक्रान्त चौधरी	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016
42816	गगनदीप सिंह वजीर	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016
42825	रुपम तलूकदार	इन्फैन्ट्री	22 सितम्बर 2016

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 48, दिनांक 27 जनवरी 2017—भारत के राजपत्र में दिनांक 28 अक्टूबर 2008 को शीर्षक “नियमित सेना, स्थाई कमीशन” एवं उप शीर्षक “कप्तान से मेजर” के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आई सी – 54208 डब्ल्यू बी रहमान हुसैन, ए एस सी के संदर्भ में मूल मेजर के पद पर अनुमोदन के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए : 09 दिसम्बर 2006

पढ़ा जाए : 16 दिसम्बर 2004

ले. से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 13 जुलाई 2013 को प्रकाशित शीर्षक “नियमित सेना, अल्प सेवा कमीशन (मेन)”, एवं उप शीर्षक “ले. से कप्तान” के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के सामने : एस एस – 43842 सुशील खजुरिया, ए एस सी

कप्तान दिनांक 20 अक्टूबर 2012

पढ़ा जाए : — रिक्त —

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st April 2017

D(MS) SECTION

No. 45, dated 23rd January 2017—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2017: -

PRINCIPAL HONORARY AIR ADC

Air Chief Mshl BS Dhanoa PVSM AVSM YSM VM ADC (15405) F(P)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2017: -

HONORARY AIR ADC

Air Mshl C Hari Kumar AVSM VM VSM (15881) F(P)

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 46, dated 24th January 2017—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-46534K	Lt Col	KA Joseph	ARTY	24 Apr 2016
IC-46544N	Lt Col	Inderjit Singh	ENGRS	24 Apr 2016
IC-46561N	Lt Col	Sanjay Malik	AC	24 Apr 2016
IC-49158M	Lt Col	S Yadav	AAD	16 Dec 2015
IC-49321F	Lt Col	MP Singh	ARTY	16 Dec 2015
IC-49338P	Lt Col	GS Bajaj	ARTY	16 Dec 2015
IC-49353K	Lt Col	C Suresh	ENGRS	20 Dec 2013
IC-49452M	Lt Col	Nirbhay Kumar	ASC	09 Jun 2016
IC-49519A	Lt Col	PK Pandey	ARTY	09 Jun 2016
IC-49596P	Lt Col	S Mathew	ASC	09 Jun 2016
IC-49601P	Lt Col	PM Chandewar	ARTY	09 Jun 2016
IC-49610W	Lt Col	S Chhetri	INF	09 Jun 2016
IC-49618H	Lt Col	MK Deshmukh	ARTY	09 Jun 2016
IC-49638W	Lt Col	Sanjiv Gajraj	INF	09 Jun 2016
IC-49643F	Lt Col	BVD Prasad	ENGRS	09 Jun 2016
IC-49644K	Lt Col	AS Negi	INF	09 Jun 2016
IC-49646P	Lt Col	SP Singh	ENGRS	09 Jun 2016
IC-49654N	Lt Col	S Shorot	ARTY	09 Jun 2016
IC-49658K	Lt Col	G Rana	AOC	09 Jun 2016
IC-49661K	Lt Col	SS Jadhav	ENGRS	09 Jun 2016

IC-49662M	Lt Col	SK Chauhan	INF	09 Jun 2016
IC-49665A	Lt Col	PP SG Chauhan	ASC	09 Jun 2016
IC-49670L	Lt Col	R Bahl	AC	09 Jun 2016
IC-49702H	Lt Col	Karan Singh	INF	09 Jun 2016
IC-49706Y	Lt Col	AK Pandey	INF	09 Jun 2016
IC-49709M	Lt Col	SPS Saggu	INF	09 Jun 2016
IC-49717L	Lt Col	B Anil Kumar	INF	09 Jun 2016
IC-49740Y	Lt Col	M Kaushal	ARTY	09 Jun 2016
IC-49772F	Lt Col	Monash Bakshi	INF	09 Jun 2016
IC-49773K	Lt Col	A Sharma	GUARDS MECH	09 Jun 2016
IC-49777A	Lt Col	V Chandar	GUARDS MECH	09 Jun 2016
IC-49784W	Lt Col	Mayank Pasbola	EME	09 Jun 2016
IC-49791M	Lt Col	A Chaudhary	INF	09 Jun 2016
IC-49793X	Lt Col	Rajat Sharma	SIGS	09 Jun 2016
IC-49795H	Lt Col	Rajeev Bagga	INF	09 Jun 2016
IC-49798W	Lt Col	Sandeep Singh	INF	09 Jun 2016
IC-49819F	Lt Col	S Sharma	MF	09 Jun 2016
IC-51404L	Lt Col	F Amirtharaj PA	EME	13 Jun 2016
IC-51424Y	Lt Col	Iqbal Aslam	ENGRS	13 Jun 2016
IC-51427M	Lt Col	R Kumar	SIGS	13 Jun 2016
IC-51431P	Lt Col	A Shandilya	SIGS	13 Jun 2016
IC-51439F	Lt Col	Y Mohan	ENGRS	13 Jun 2016
IC-51455Y	Lt Col	K Roshan Raj	EME	13 Jun 2016
IC-33465A	Lt Col	AP Singh	INF	16 Dec 2004
IC-46010H	Lt Col	SV Ramni	INF	22 Apr 2014
IC-49778H	Lt Col	RS Cheema	AAD	09 Jun 2016
V00431M	Lt Col	SL Baghel	RVC	10 Oct 2013
IC-37773X	Lt Col	MS Guron	AC	29 Apr 2007
IC-45636N	Lt Col	V Razdan	INF	06 Nov 2012
IC-46162K	Lt Col	S Chakravorty	SIGNALS	01 Nov 2014
IC-46480N	Lt Col	SP Singh	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-46507A	Lt Col	RS Nughaal	MECH INF	24 Apr 2016
IC-46538A	Lt Col	Sukhvir Singh	GUARDS MECH	24 Apr 2016
IC-46549M	Lt Col	SS Ahluwalia	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-47608A	Lt Col	Jaidev Singh	INF	11 Jun 2014
IC-48559P	Lt Col	BS Kullar	ASC	10 Jun 2015
IC-49003X	Lt Col	A Rishi	INF	16 Dec 2015
IC-49064P	Lt Col	Anil Rana	INF	16 Dec 2015
IC-49126K	Lt Col	RK Bhar	INF	16 Dec 2015

IC-49284Y	Lt Col	M Sharma	INF	16 Dec 2015
IC-49535X	Lt Col	Sanjiva	GUARDS MECH	09 Jun 2016
IC-49649H	Lt Col	JS Cheema	INF	09 Jun 2016
IC-49732A	Lt Col	SK Salwan	MECH INF	09 Jun 2016
IC-49745X	Lt Col	CN Goswami	INF	09 Jun 2016
IC-41298K	Lt Col	Sagar Mal	ARTY	18 Jun 2009
IC-44524F	Lt Col	V Aditya	ARTY	13 Jun 2013
IC-46050K	Lt Col	Dushyant Singh	ARTY	01 Nov 2014
IC-46131K	Lt Col	AK Saha	ARTY	01 Nov 2014
IC-46135A	Lt Col	JD Kohok	ARTY	01 Nov 2014
IC-46323F	Lt Col	A Dhall	ARTY	09 Nov 2015
IC-46351N	Lt Col	BJ D Souza	INF	09 Nov 2015
IC-46524A	Lt Col	RS Rathore	ARTY	24 Apr 2016
IC-46528W	Lt Col	J Alexander	ARTY	24 Apr 2016
IC-46545W	Lt Col	PS Kanwal	AAD	24 Apr 2016
IC-47088A	Lt Col	PG Subbapurmath	ARTY	19 Dec 2013
IC-49288P	Lt Col	PKJ Pardeshi	ARTY	16 Dec 2015
IC-49312A	Lt Col	A Sharma	AC	16 Dec 2015
IC-49324P	Lt Col	S Sharma	INF	16 Dec 2015
IC-49337M	Lt Col	KK Nair	ASC	16 Dec 2015
IC-49594K	Lt Col	SV Patwardhan	INF	09 Jun 2016
IC-49631M	Lt Col	Sukhdev Singh	ARTY	09 Jun 2016
IC-49734L	Lt Col	I Ghoshal	ARTY	09 Jun 2016
IC-49780A	Lt Col	Satnam Singh	ENGRS	09 Jun 2016
IC-51433A	Lt Col	KAN Dev	ENGRS	13 Jun 2016
IC-51451H	Lt Col	Vivek Jain	ENGRS	13 Jun 2016
V-00453L	Lt Col	CS Rathore	RVC	17 Jun 2015
V-00456Y	Lt Col	Anurag Kohli	RVC	17 Jun 2015
IC-33997A	Lt Col	NC Nanjappa	ENGRS	16 Dec 2004
IC-42383Y	Lt Col	RS Rana	INF	15 Dec 2010
IC-42658F	Lt Col	D Dhingra	ARTY	15 Dec 2010
IC-45463F	Lt Col	R Pandey	ARTY	07 Nov 2011
IC-46229X	Lt Col	BS Sahni	INF	18 Apr 2015
IC-46421F	Lt Col	DRGF ANTHONY	ARTY	09 Nov 2015
IC-46479Y	Lt Col	S Kumar	INF	24 Apr 2016
IC-46511H	Lt Col	GS Gill	INF	24 Apr 2016
IC-46523X	Lt Col	Rajnish Sobti	SIGS	24 Apr 2016
IC-46531W	Lt Col	Ashok Kumar	AAD	24 Apr 2016

IC-46560L	Lt Col	MA Apte	SIGS	24 Apr 2016
IC-48148W	Lt Col	MK Sawant	AOC	17 Dec 2014
IC-48565H	Lt Col	Sajimon Mathew	MECH INF	10 Jun 2015
IC-48733W	Lt Col	Subhash Bhargava	AAD	10 Jun 2015
IC-48789H	Lt Col	MM Mehra	AAD	10 Jun 2015
IC-49382Y	Lt Col	Debabrata Kar	AEC	16 Dec 2015
IC-49416F	Lt Col	RP Sinha	AEC	16 Dec 2015
IC-49534P	Lt Col	Gopi Kumar	INF	09 Jun 2016
IC-49750H	Lt Col	Rohit Yadav	INF	09 Jun 2016
IC-49781H	Lt Col	R Gupta	EME	09 Jun 2016
IC-49828H	Lt Col	AK Jha	AEC	09 Jun 2016
IC-49862H	Lt Col	RK Pokhriyal	AEC	09 Jun 2016
IC-51105M	Lt Col	K Sudhakar	ENGRS	17 Dec 2015
IC-51444M	Lt Col	P Mathusuthanan	EME	13 Jun 2016
IC-46456X	Lt Col	V Raghuvanshi	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-46587H	Lt Col	R Chandra	SIGNALS	08 Nov 2016
IC-46598P	Lt Col	Sanjeev Kumar	INF	08 Nov 2016
IC-46601K	Lt Col	Sanjay Singh	AOC	08 Nov 2016
IC-46619A	Lt Col	R Shrivastava	ARTY	08 Nov 2016
IC-46652X	Lt Col	Rishi Dev	SIGNALS	08 Nov 2016
IC-46664M	Lt Col	A K Mishra	AOC	08 Nov 2016
IC-46665P	Lt Col	Rajesh Tandon	INF	08 Nov 2016
IC-46670A	Lt Col	DK Yadav	ARTY	08 Nov 2016
IC-49699N	Lt Col	TA Deshmukh	ARTY	09 Jun 2016
IC-49703L	Lt Col	MS Kang	INF	09 Jun 2016
IC-46616M	Lt Col	DN Rai	INF	08 Nov 2016
IC-46618X	Lt Col	J Walia	GUARDS MECH	08 Nov 2016
IC-46651P	Lt Col	HS Dhaliwal	INF	08 Nov 2016
IC-46657W	Lt Col	Brijendra Kumar	INF	08 Nov 2016
IC-46666X	Lt Col	Rajesh Kumar	SIGNALS	08 Nov 2016
IC-41143P	Lt Col	D Faujdar	ARTY	18 Jun 2009
IC-47375K	Lt Col	Shankar Singh	INF	19 Dec 2013
IC-48708X	Lt Col	AS Randhawa	INF	10 Jun 2015
IC-49940P	Lt Col	SK Singh	ASC	15 Dec 2016
IC-49956A	Lt Col	SK Singh	AOC	15 Dec 2016
IC-50038A	Lt Col	Nalin Chauhan	EME	15 Dec 2016
IC-50097M	Lt Col	DK Rana	AOC	15 Dec 2016
IC-50100F	Lt Col	R Mehta	ARTY	15 Dec 2016

IC-50127Y	Lt Col	AS Sambyal	SIGNALS	15 Dec 2016
IC-50218H	Lt Col	TS Bhandari	INF	15 Dec 2016
IC-50262M	Lt Col	GC Mohanta	AEC	15 Dec 2016
IC-51899H	Lt Col	C George	ENGRS	19 Dec 2016
IC-51912F	Lt Col	RV Singh	ENGRS	19 Dec 2016
IC-51922L	Lt Col	Ananth Srinivas	EME	19 Dec 2016

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

P.No	NAME	ARMS	SUBSTANTIVE RK
IC58864	SG GANAPATHI	MECH INF	01-08-2016 but sen wef 05-03-2014
IC58887	RITESH KUMAR	MECH INF	01-08-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59056	K BALHARA, SM	MECH INF	01-08-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59079	S SENGUPTA	MECH INF	01-08-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59677	GOVERDHAN GG	INF	04-10-2016 but sen wef 08-05-2015
IC59735	NS JASWAL	INF	23-09-2016 but sen wef 08-05-2015
IC59902	VIKRAM RANA	INF	29-02-2016 but sen wef 08-05-2015

P.No	NAME	ARM / SERVICE	Subs Dt
IC 50844	KM RAI	JAG	02/12/13 but sen wef 01/06/09

P/No.	NAME	ARMS	SUBSTANTIVE RK
IC-56944	A YADAV	MECH INF	01/09/2014 but sen wef 24/04/2012

NAVIN KUMAR
Dy Dir
MS-8A

No. 47, dated 25th January 2017—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION(SL)

MAJ TO BE LT COL

SL No	Name	Arm
SL-04737	Randhir Singh	SL B/R
SL-04738	Kubendran R	SL B/R
SL-04739	Karanpal Singh Verma	SL B/R
SL-04741	G Palani Velu	SL B/R
SL-04742	Bharat	SL B/R
SL-04743	Suresh Kumar PS	SL B/R
SL-04746	Ranjeet Singh Gusain	SL E/M
SL-04747	Udaya Kumar T	SL (RO)

SL-04748	Mahabir Singh	SL B/R
SL-04749	Bhawani Shankar	SL B/R
SL-04750	Dinesh Kumar	SL B/R
SL-04751	Sanjay Kumar	SL B/R
SL-04752	Mukesh Kumar	SL B/R
SL-04755	LL Jibon Singh	SL TOT
SL-04756	Shaji Jose	SL (RO)
SL-04757	Padmanabha Prabhu B	SL TOT
SL-04758	Satyendra Narayan Singh	SL (RO)
SL-04759	Ramesh Singh	SL (RO)
SL-04760	Kishan Singh	SL (RO)
SL-04761	PP Bibu	SL AOC
SL-04762	Pradeep Kumar	SL (RO)
SL-04763	Anil Kumar Pillai	SL (RO)
SL-04764	Hanumantha Prasad P	SL TEO (AAD)
SL-04765	Borude Rajendra Suryabhan	SL (RO)
SL-04766	Linson Thomas	SL (RO)
SL-04767	Rupinder Singh	SL (RO)
SL-04768	K Manoharan	SL B/R
SL-04769	Amarnath N	SL E/M
SL-04770	Satish Kumar Singh	SL E/M
SL-04771	Sankara Narayanan Potty R	SL E/M
SL-04772	Virpal singh	SL (RO)

—05 Jul 2016

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
MAJ TO BE LT COL

Pers No	Name	Arms	Date of Promotion
IC-65642	ABHIJEET MISHRA	INF	02 Nov 2016
IC-65643	MUKESH KUMAR TAANK	ARTY	02 Nov 2016
IC-65803	RATAN BAHADUR	M/INF	08 Nov 2016
IC-65804	ABHISHEK DWIVEDI	AC	08 Nov 2016
IC-65805	HITESH KAUSHIK	ASC	08 Nov 2016
IC-65807	JOHAN VINUTH D'COSTA	INF	08 Nov 2016
IC-65809	SANDEEP KUMAR	AOC	08 Nov 2016

Pers No	Name	Arms	Date of Promotion
IC-65810	NISHANT KARKI	ASC	08 Nov 2016
IC-65811	RAKESH SINGH	INF	08 Nov 2016
IC-65812	CHARANJEET SINGH SANDHU	INF	08 Nov 2016
IC-65813	SANJAY KUMAR	AAD	08 Nov 2016
IC-65814	RAM DAYAL VYAS	ARTY	08 Nov 2016
IC-65815	NEERAJ KAPOOR	ENGRS	08 Nov 2016
IC-65816	MAYANK AGARWAL	INF	08 Nov 2016
IC-65817	NAVIN KUMAR TYAGI	AAD	08 Nov 2016
IC-65819	VISHAL SHARMA	INF	08 Nov 2016
IC-65820	ARUN GULATI	ARTY	08 Nov 2016
IC-65821	BHONSLE AJAY ULHAS	INF	08 Nov 2016
IC-65822	JAIDEEP SHEORAN	INF	08 Nov 2016
IC-65823	AMRINDER SINGH WALIA	AC	08 Nov 2016
IC-65825	H LELITH BABU	INF	08 Nov 2016
IC-65826	PRADEEP KUMAR	INF	08 Nov 2016
IC-65827	RAMIT HASIJA	AAD	08 Nov 2016
IC-65828	VIKAS CHANDER	INF	08 Nov 2016
IC-65829	GOPALA KRISHNAN K	INF	08 Nov 2016
IC-65830	MAYUR RATURI	EME	08 Nov 2016
IC-65831	GURINDER PAUL SINGH GAGNEZA	EME	08 Nov 2016
IC-65832	AMBUJ BALLAVA SAHU	INF	08 Nov 2016
IC-65833	KJ THOMAS	ARTY	08 Nov 2016
IC-65834	JAGPAL SINGH	M/INF	08 Nov 2016
IC-65835	KASWA RATNADEEP VIJAY	SIGS	08 Nov 2016
IC-65837	SANGSONGBOU WISUNAMAL	INF	08 Nov 2016
IC-65838	RAJ KUMAR SHARMA	INF	08 Nov 2016
IC-65839	VISHWANATH TIWARI	INF	08 Nov 2016
IC-65842	PANKAJ KUMAR	ARTY	08 Nov 2016
IC-65844	VIJAY RAO	ASC	08 Nov 2016
IC-65845	SIDDHARTHA VIJAY SESHAN	INF	08 Nov 2016
IC-65846	DILER SINGH JAKHAR	ARTY	08 Nov 2016
IC-65847	RAJEEV YADAV	ARTY	08 Nov 2016
IC-65848	KHUSHWANT MALVEEYA	AOC	08 Nov 2016
IC-65849	DHARAM JOT SINGH	INF	08 Nov 2016
IC-65851	ABHISHAKE RAI	ASC	08 Nov 2016
IC-65852	ANIL JAKHAR	INF	08 Nov 2016

Pers No	Name	Arms	Date of Promotion
IC-65854	AMARDEEP SINGH	ASC	08 Nov 2016
IC-65856	KAMALJEET SINGH LAVANA	ENGRS	08 Nov 2016
IC-65858	RAHUL SHARMA	AOC	08 Nov 2016
IC-65859	PANKAJ JASWAL	ENGRS	08 Nov 2016
IC-65860	GAURAV GREWAL	INF	08 Nov 2016
IC-65861	GOPAL KRISHNA J	EME	08 Nov 2016
IC-65866	SUSHIL LAKHANPAL	EME	08 Nov 2016
IC-65871	ARNAB MITRA	INF	08 Nov 2016
IC-65872	ARVIND CHAUHAN	ARTY	08 Nov 2016
IC-65873	JAIDEEP SINGH	AC	08 Nov 2016
IC-65875	ABHILASH VARGHESE	INF	08 Nov 2016
IC-65877	VISHAL THAPA	SIGS	08 Nov 2016
IC-65879	SHASHIKIRAN DESHPANDE	ENGRS	08 Nov 2016
IC-65880	KUMAR RAJA MS	ASC	08 Nov 2016
IC-65876	JITENDARA CHATURVEDI	ARTY	08 Nov 2016
IC-66175	Vikas Malik	Sigs	17 Oct 2016
IC-66177	Dutta Saibal Subhas Chandra	EME	17 Oct 2016
IC-66505	Pisal Abhay Vijay Singh	EME	17 Oct 2016
IC-66506	Suchindra Dwivedee	EME	17 Oct 2016
IC-66508	Bhupendra Hang Subba	Sigs	17 Oct 2016
IC-66509	Manjunath R	Sigs	17 Oct 2016
IC-66510	Sarabjot Singh Sohi	EME	17 Oct 2016
IC-66513	Gagandeep Kumar	Sigs	17 Oct 2016
IC-66516	Vivek Bindra	Engrs	17 Oct 2016
IC-66521	Parveen Dogra	Sigs	17 Oct 2016
IC-66522	Gagandeep Singh	Sigs	17 Oct 2016
IC-66523	Harkaran Singh	EME	17 Oct 2016
IC-66524	Rakesh	Engrs	17 Oct 2016
IC-66527	G Anand	Sigs	17 Oct 2016
IC-66531	Naveen Mishra	EME	17 Oct 2016
IC-66532	Choudhari Jayant Bhagawan	Engrs	17 Oct 2016
IC-66534	Prasant Trivedi	Sigs	17 Oct 2016
IC-66517	BALJEET SINGH	SIGS	17 OCT 2016
IC-62340	AMIT DADHICH	GUARDS MECH	08 JUN 2015

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
62957	RAJ SINGH DUHAN	EME	14 Jun 2016
62958	AJIT KHATRI	INF	14 Jun 2016
62959	ANTONY JOSEPH	AAD	14 Jun 2016
62960	KAPIL KHANDURI	M/INF	14 Jun 2016
62961	RITESH RAMNIWAS LADDHA	INF	14 Jun 2016
62962	NIKHIL BHARDWAJ	AC	14 Jun 2016
62964	VINAYAK	INF	14 Jun 2016
62965	DAMANJIT SINGH VIRK	AOC	14 Jun 2016
62966	RAKESH TOKAS	INF	14 Jun 2016
62967	VIKAS MALIK	ASC	14 Jun 2016
62968	MANAS NAYAR	ARTY	14 Jun 2016
62969	ANIL K	INF	14 Jun 2016
62970	PRADEEP KUMAR	INF	14 Jun 2016
62971	MOHIT SAHAI	ARTY	14 Jun 2016
62972	BENJY GEORGE THOMAS	INF	14 Jun 2016
62973	KARAN BHATIA	INF	14 Jun 2016
62974	NARENDER PAL SINGH	AOC	14 Jun 2016
62975	RANJIT SINGH PATHANIA	AC	14 Jun 2016
62976	RACHIT SHARMA	ARTY	14 Jun 2016
62977	RAHUL KANWAR	ASC	14 Jun 2016
62978	RAHUL VATSYAYAN	ARTY	14 Jun 2016
62979	PRATEEK SHARMA	INF	14 Jun 2016
62980	GAURAV SINGH	AC	14 Jun 2016
62981	VINOD KUMAR S RACHANNAVAR	SIGS	14 Jun 2016
62982	PRASHANT KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
62983	RAJNEESH KUMAR	ENGRS	14 Jun 2016
62984	RAHUL AGARWAL	INF	14 Jun 2016
62985	K VIJAY ANANDH	ARTY	14 Jun 2016
62986	BISWAS R NAMBIAR	AVN	14 Jun 2016
62987	NIKIT BISHT	INF	14 Jun 2016
62988	R RAGHAVAN	INF	14 Jun 2016
62989	RAJEEV KUMAR YADAV	AOC	14 Jun 2016
62990	PARAS REHNI	ENGRS	14 Jun 2016
62991	TARUNENDRA PRATAP SINGH	INF	14 Jun 2016
62992	VIVEK MAHAJAN	M/INF	14 Jun 2016
62993	SAKET RAWAT	M/INF	14 Jun 2016
62994	SHRI RAGAVENDHIRA PRABU R	ARTY	14 Jun 2016
62995	RISHI SHARMA	AOC	14 Jun 2016
62996	SUNIL KUMAR	ARTY	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
62997	VIJAY KUMAR THAPA	ASC	14 Jun 2016
62998	SHIVAM	ARTY	14 Jun 2016
62999	BINSU MATHEW CHERIAN	ASC	14 Jun 2016
63000	RAJESH KUMAR BHARDWAJ	AVN	14 Jun 2016
63001	RAMINDER SINGH	INF	14 Jun 2016
63002	SHISPAL SINGH RAWAT	M/INF	14 Jun 2016
63003	PRADEEP SHARMA	INF	14 Jun 2016
63004	NIKHIL KAPOOR	AAD	14 Jun 2016
63005	RAKESH KUMAR SINGH	AOC	14 Jun 2016
63006	RAM KUMAR SINGH	ARTY	14 Jun 2016
63007	ANKIT SOOD	INF	14 Jun 2016
63008	NEERAJ MARWAH	AC	14 Jun 2016
63009	KAMLESH KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
63010	VINAY KUMAR	INF	14 Jun 2016
63011	SANJAY BISHT	INF	14 Jun 2016
63012	BINIT KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
63014	YOGENDER DUTT SHARMA	INF	14 Jun 2016
63015	VIVEK ELAVAKUNNATH	ARTY	14 Jun 2016
63016	AMIT SAINI	INF	14 Jun 2016
63017	ASHISH KUMAR	INF	14 Jun 2016
63018	ASHISH ANAND ABHAYANKAR	AVN	14 Jun 2016
63019	RISHI KESH SHARMA	AOC	14 Jun 2016
63020	ANURAG TALWAR	ENGRS	14 Jun 2016
63021	SUMIT DHAGAT	SIGS	14 Jun 2016
63022	ASHUTOSH KUMAR SINGH	ASC	14 Jun 2016
63023	LAGAY TSHERING LEPCHA	AOC	14 Jun 2016
63024	RAVI RANJAN	ARTY	14 Jun 2016
63025	ABHISHEK BHARTI	AAD	14 Jun 2016
63026	GAJENDRA KUMAR	AOC	14 Jun 2016
63027	ADITYA KAPOOR	ARTY	14 Jun 2016
63028	VIVEK SABHARWAL	ENGRS	14 Jun 2016
63029	ARUN YADAV	INF	14 Jun 2016
63030	KHUNDRAPAM GEORGE SINGH	AOC	14 Jun 2016
63031	ANUJOY BHAUMIK	INF	14 Jun 2016
63032	ASHUTOSH SINGH	INF	14 Jun 2016
63033	TUSHAR SINGH TOMAR	INF	14 Jun 2016
63034	MOHIT CHAUHAN	INF	14 Jun 2016
63035	ADARSH SINGH PARIHAR	INF	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63036	SARANSH NIGAM	INF	14 Jun 2016
63037	KOUSHAL BHATIA	INF	14 Jun 2016
63038	RAJAT SINGH JASWAL	AC	14 Jun 2016
63039	RAVI SHEKHAR MISHRA	INF	14 Jun 2016
63040	HIMANSHU PANDEY	ASC	14 Jun 2016
63041	PRANAY SRIVASTAVA	INF	14 Jun 2016
63042	JITENDRA KUMAR CHATURVEDI	ARTY	14 Jun 2016
63043	RAVI SINGH BAGHEL	INF	14 Jun 2016
63044	BHAVATOSH DAS	INF	14 Jun 2016
63045	ASHWANI JOSHI	INF	14 Jun 2016
63046	PARVEEN JAKHAR	INF	14 Jun 2016
63047	LOKANADHAM GURUVELLI	ARTY	14 Jun 2016
63048	MATHEW CHERIAN	AVN	14 Jun 2016
63049	GAURAV KITCHLU	INF	14 Jun 2016
63051	JAGPREET SINGH	AC	14 Jun 2016
63052	RAKESH KATOCH	INF	14 Jun 2016
63053	BIKRAM DAS	ASC	14 Jun 2016
63054	ASHISH RAWAT	INF	14 Jun 2016
63055	SACHIN JAIN	AAD	14 Jun 2016
63056	GOPAL ARJYAL	M/INF	14 Jun 2016
63057	SUDEEP GHATAK	INF	14 Jun 2016
63058	DHRUV RAHEJA	AC	14 Jun 2016
63059	VIPUL GUPTA	ARTY	14 Jun 2016
63060	ADITYA PURI	ENGRS	14 Jun 2016
63061	VINEET KUMAR	AC	14 Jun 2016
63062	VIKRAM SADHOTRA	INF	14 Jun 2016
63063	MUKESH KUMAR JHA	INF	14 Jun 2016
63064	PIYUSH S KATAL	ARTY	14 Jun 2016
63065	SANDEEP RANA	INF	14 Jun 2016
63066	SAURABH LAHIRI	SIGS	14 Jun 2016
63067	AMIT BHATNAGAR	AAD	14 Jun 2016
63068	PANKAJ PAL	INF	14 Jun 2016
63069	DEEPAK RANA	INF	14 Jun 2016
63070	PUNYASHLOK BRAHMA	ARTY	14 Jun 2016
63071	GHATGE VISHAL SHIVAJI	INF	14 Jun 2016
63072	MAHIPAL LATHER	INF	14 Jun 2016
63073	VISHWANATH PRATAP SINGH	AVN	14 Jun 2016
63074	GURTEJ SINGH	INF	14 Jun 2016
63075	MANI INDER PAL	INF	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63076	NETRAJIT CHONGTHAM	ARTY	14 Jun 2016
63077	AMIT KUMAR SIHAG	INF	14 Jun 2016
63078	VISHAL K DEEVATAGI	ASC	14 Jun 2016
63079	GAURAV VASHISTH	ARTY	14 Jun 2016
63080	THOMAS SEBASTIAN	INF	14 Jun 2016
63081	SUNIL KUMAR CHAUBEY	INF	14 Jun 2016
63082	RATNADEEP DAS	ARTY	14 Jun 2016
63083	SAURABH VATS	AAD	14 Jun 2016
63084	BANDI PRAVEEN ARUN	ARTY	14 Jun 2016
63085	JAGDISH CHANDRA PANT	AOC	14 Jun 2016
63086	NISHANT ARVIND	ARTY	14 Jun 2016
63088	JONATHAN VARUN BENJAMIN	INF	14 Jun 2016
63089	S ANAND	INF	14 Jun 2016
63090	TARUN BHASIN	INF	14 Jun 2016
63091	VIKRAM PRATAP SINGH	INF	14 Jun 2016
63092	MOHIT SINGH PATHANIA	AC	14 Jun 2016
63094	SUMIT KOHLI	AOC	14 Jun 2016
63095	RV VISHWANATHE	AOC	14 Jun 2016
63096	VIKAS SHUKLA	ARTY	14 Jun 2016
63098	HEMANT KUMAR SHARMA	AVN	14 Jun 2016
63100	PIYUSH BHATT	INF	14 Jun 2016
63101	MOHVER SINGH GREWAL	INF	14 Jun 2016
63102	AMIT KUMAR TYAGI	INF	14 Jun 2016
63103	SUHEL SINGH SALARIA	INF	14 Jun 2016
63104	BIMLESH KUMAR	INF	14 Jun 2016
63105	SURAJ BHATIA	ASC	14 Jun 2016
63106	K PRATAP SINGH	AC	14 Jun 2016
63107	CHARAN SINGH SHEKHAWAT	INF	14 Jun 2016
63108	AMIT KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
63110	ANINDYA CHATTERJEE	INF	14 Jun 2016
63111	RYAN CHAKRAVARTY	INF	14 Jun 2016
63112	BIBEK CHAKROBURY	M/GUARD	14 Jun 2016
63113	SUMEET SINGH	INF	14 Jun 2016
63114	SAKET SAWHNEY	INT	14 Jun 2016
63115	RAVINDER SINGH	INT	14 Jun 2016
63117	ABHISHEK BHARADWAJ	ARTY	14 Jun 2016
63118	ASHUTOSH SHARMA	AC	14 Jun 2016
63119	RAKESH SHARMA	INF	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63120	RAJSEKHAR SHARMA	ASC	14 Jun 2016
63121	PANKAJ KUMAR UPADHYAY	ASC	14 Jun 2016
63123	VARUN SAREEN	AAD	14 Jun 2016
63124	DHRUV BORA	INF	14 Jun 2016
63125	J WUNGMAZAN	INF	14 Jun 2016
63126	RITESH TRIPATHI	INF	14 Jun 2016
63127	ARJUN MOHINTA	INT	14 Jun 2016
63128	MANVENDRA SINGH	INF	14 Jun 2016
63129	PIYUSH KUMAR SHAH	ARTY	14 Jun 2016
63130	KRISHNA KAPOOR	INF	14 Jun 2016
63131	KULWINDER SINGH	AC	14 Jun 2016
63132	ANOOB KUMAR SRIVASTAVA	INF	14 Jun 2016
63133	ANIL SINGH	ASC	14 Jun 2016
63134	ABHISHEK BAMOLA	INF	14 Jun 2016
63135	RAJESH CHAUDHRY	INF	14 Jun 2016
63136	VIPLAV TRIPATHI	INF	14 Jun 2016
63137	SHISHPAL SINGH	INF	14 Jun 2016
63138	ASHOK KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
63139	PUNEET SHARMA	ARTY	14 Jun 2016
63140	ABHISHEK SHARMA	INF	14 Jun 2016
63141	PRATAP KUMAR DASH	AAD	14 Jun 2016
63143	VISHNU KANT AWASTHI	AOC	14 Jun 2016
63144	SHANTANU KENNEY	G/MECH	14 Jun 2016
63145	PRAVEER K RAY	AOC	14 Jun 2016
63146	CHETAN CHOPRA	INF	14 Jun 2016
63147	TARUN KATYAL	ASC	14 Jun 2016
63148	KUSHVIR NANDA	INF	14 Jun 2016
63149	VARUN BHASIN	M/GUARD	14 Jun 2016
63150	HARDEEP SINGH OBEROI	ARTY	14 Jun 2016
63151	SHOUBHIK BHATTACHARYA	SIGS	14 Jun 2016
63152	NM MANOJ KUMAR	AOC	14 Jun 2016
63154	C PRASANNAN	ARTY	14 Jun 2016
63155	GAGANDEEP SINGH KOHLI	ARTY	14 Jun 2016
63156	CHANDRAMANI SINGH	INF	14 Jun 2016
63157	SUDHAKAR DWIVEDI	AEC	14 Jun 2016
63158	SRINIVAS PARTHASARTHY	ARTY	14 Jun 2016
63159	SREEJITH P MENON	INF	14 Jun 2016
63160	SUMESH	M/INF	14 Jun 2016
63161	KAPIL SAINI	ASC	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63162	SAURABH MEHROTRA	INF	14 Jun 2016
63163	BHARAT SINGH PANWAR	INF	14 Jun 2016
63164	JASBINDER SINGH LABANA	AVN	14 Jun 2016
63165	MAHENDRA KUMAR TIWARI	INT	14 Jun 2016
63166	AMIT THAKUR	INF	14 Jun 2016
63167	ANKUR MOHAN	INF	14 Jun 2016
63168	SHAKTI SINGH	INF	14 Jun 2016
63169	JOYDEEP SARKAR	ARTY	14 Jun 2016
63170	VIVEK PANCHOLI	ARTY	14 Jun 2016
63171	ASHISH ARUN DESHPANDE	INF	14 Jun 2016
63172	SUNEEL KUMAR	AOC	14 Jun 2016
63173	ANIL SONAJIRAO KADAM	INF	14 Jun 2016
63174	PRATEEK GUPTA	ARTY	14 Jun 2016
63175	PRAKASH KUMAR SINGH	ARTY	14 Jun 2016
63176	AKHILESH KUMAR	AOC	14 Jun 2016
63177	PRASHANT SINGH KHATI	INF	14 Jun 2016
63179	PRAMOD KUMAR	INT	14 Jun 2016
63180	DEVESH SHAHI	ASC	14 Jun 2016
63181	CHANDRA PRAKASH SHARMA	AAD	14 Jun 2016
63182	PRASHANT JASROTIA	AC	14 Jun 2016
63183	AKSHAY JAIN	ARTY	14 Jun 2016
63184	KAPIL TYAGI	AAD	14 Jun 2016
63185	S SANTOSH	M/INF	14 Jun 2016
63186	SUYOG DAVE	AAD	14 Jun 2016
63187	GAURAV JAISINGH	INF	14 Jun 2016
63188	GIRI RAJ DHARAN	M/GUARD	14 Jun 2016
63189	ASHUTOSH JHA	ARTY	14 Jun 2016
63190	SANJEEV KUMAR RANA	AOC	14 Jun 2016
63191	SHONA GEORGE	ARTY	14 Jun 2016
63193	RANGANATH PATIL	ARTY	14 Jun 2016
63194	SUSHMIT BANERJEE	AC	14 Jun 2016
63195	DEV BASU MADHAV	INF	14 Jun 2016
63196	PARAG BISHT	INF	14 Jun 2016
63197	BRIJENDRA SINGH	INF	14 Jun 2016
63198	GAUTAM ANAND	INF	14 Jun 2016
63199	RAJESH CHANDER KHAJURIA	ASC	14 Jun 2016
63200	AMAN KUMAR SINGH	INF	14 Jun 2016
63201	YUNESH CHOUDHARY	INF	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63202	DINESH SINGH	INF	14 Jun 2016
63203	VISHAL SHARMA	INF	14 Jun 2016
63204	SUMIT SACHDEVA	AOC	14 Jun 2016
63206	ARUNABH SINGH	AVN	14 Jun 2016
63207	JOSHI HEMANT MOHANLAL	INF	14 Jun 2016
63209	MANISH SHARMA	ASC	14 Jun 2016
63210	MITUSH RAGHAV	INF	14 Jun 2016
63211	CHIROM IBUNGO	INF	14 Jun 2016
63212	GIRISH SHEKHAR	AVN	14 Jun 2016
63214	CN RAMESH	ASC	14 Jun 2016
63215	ANUP GREWAL	ARTY	14 Jun 2016
63216	PRIYANK SHARMA	INF	14 Jun 2016
63217	CHETAN KUMAR	AAD	14 Jun 2016
63218	ARUN PRAKASH MAURYA	INF	14 Jun 2016
63219	VIJAY KUMAR LAMA	INF	14 Jun 2016
63220	IYER ARUN RAJAN	INF	14 Jun 2016
63221	SIVAKUMAR M	INF	14 Jun 2016
63222	SUMIT KUMAR CHANDEL	AOC	14 Jun 2016
63223	JAIDEEP SINGH	AC	14 Jun 2016
63225	TM PRAVEEN KUMAR	ARTY	14 Jun 2016
63226	KUMAR ABHISHEK	INF	14 Jun 2016
63227	NITIN AGNIHOTRI	INT	14 Jun 2016
63228	ABHISHEK JUYAL	INF	14 Jun 2016
63229	AKSHAY DAS	INF	14 Jun 2016
63230	SAMEER SHARMA	AC	14 Jun 2016
63231	RAJESH KUMAR	ENGRS	14 Jun 2016
63232	MOHIT GAUR	SIGS	14 Jun 2016
63233	DEBASHIS DASGUPTA	ARTY	14 Jun 2016
63234	GAGAN SINGH	ENGRS	14 Jun 2016
63235	PRABAL SRIVASTAVA	SIGS	14 Jun 2016
63236	YOGESH MEHTA	AVN	14 Jun 2016
63237	ASHUTOSH KUMAR	ENGRS	14 Jun 2016
63238	SANJEEV NARULA	EME	14 Jun 2016
63239	ASHISH KHATTRI	ENGRS	14 Jun 2016
63240	VIPUL AGRAWAL	SIGS	14 Jun 2016
63241	ROHIT	EME	14 Jun 2016
63242	MANISH PATHAK	ENGRS	14 Jun 2016
63243	RUCHIEN SINGHAL	ENGRS	14 Jun 2016
63244	GUARAV SINGH	EME	14 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
63245	SAMAR SIROHI	SIGS	14 Jun 2016
63246	SP GUPTA	EME	14 Jun 2016
63248	ABHINAV KUMAR CHAUDHRI	EME	14 Jun 2016
63249	ADHEESH SINHA	EME	14 Jun 2016
63250	BHAVISHYA KASHYAP	SIGS	14 Jun 2016
63251	KUSHLENDRA TYAGI	EME	14 Jun 2016
63252	JAIKRISHNAN MHASKE	ENGRS	14 Jun 2016
63253	TUMUSARA CHANDRA	EME	14 Jun 2016
63254	SUDEEP MOHAN RAWAT	ENGRS	14 Jun 2016
63255	MANISH KOKEL	SIGS	14 Jun 2016
63256	CHINMAYA MUND	EME	14 Jun 2016
63257	VIKHYAT GARG	SIGS	14 Jun 2016
63258	GAURAV SRIVASTAVA	SIGS	14 Jun 2016
63259	ANIRUDHA BOSE	SIGS	14 Jun 2016
63260	ANIL RANAKOTI	ENGRS	14 Jun 2016
63261	AMIT SINGH	EME	14 Jun 2016
63262	APOORV SANJEEV SHARANGPANI	EME	14 Jun 2016
63263	VIVEK YADAV	ENGRS	14 Jun 2016
63264	SANDEEP KUMAR DAS	SIGS	14 Jun 2016
63265	SURAJIT SINHA ROY	ENGRS	14 Jun 2016
63266	SAURABH SOOD	SIGS	14 Jun 2016
63267	PILLAI SUNIL SHANKAR	ENGRS	14 Jun 2016
63268	ASHISH ANAND	EME	14 Jun 2016
63269	MOHIT GOGNA	ENGRS	14 Jun 2016
63270	AKSHAY KAPOOR	SIGS	14 Jun 2016
63271	RAJESH UNNIKRISHNAN	ENGRS	14 Jun 2016
63272	PRANAV MOHOTRA	SIGS	14 Jun 2016
63273	SANJEEV KUMAR SINGH	EME	14 Jun 2016
63274	KALRA RISHABH RAVINDER	EME	14 Jun 2016
63275	ABHISHEK AGARWAL	ENGRS	14 Jun 2016
63276	HRISHIKESH ARUN KHEDKAR	ENGRS	14 Jun 2016
63287	ANIL DEVSINGH JASROTIA	AEC	14 Jun 2016
63291	G. ASHOK KUMAR	AEC	14 Jun 2016
63338	VENKATA BABU C	AEC	14 Jun 2016
63363	UMESH PRATAP SINGH RATHORE	AEC	14 Jun 2016
67279	GAURAV CHAUDHRY	AC	15 Jun 2016
67280	ZORAWAR SINGH RANA	EME	15 Jun 2016
67281	ANKUSH GOYAL	SIGS	15 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
67284	BP SINGH KATWAL	SIGS	15 Jun 2016
67285	SIDDHANTI AJINKYA AMBADAS	EME	15 Jun 2016
67286	GURSEWAK SINGH	EME	15 Jun 2016
67287	ARVIND SHAHABADI	ARTY	15 Jun 2016
67289	ADHEESH SRIVASTAVA	ENGRS	15 Jun 2016
67290	TRIVEDI JIGAR BHARATKUMAR	ENGRS	15 Jun 2016
67292	APARIHARYE KAUL	EME	15 Jun 2016
67293	UDAY SINGH BARANGULE	EME	15 Jun 2016
67294	YOGENDRA KUMAR	AAD	15 Jun 2016
67295	LEISHANGTHEM ROBERT BRUCE	ENGRS	15 Jun 2016
67296	RAJ BRINDER SINGH SANDHU	SIGS	15 Jun 2016
67297	VIVEK YADAV	SIGS	15 Jun 2016
67300	VINEET GAUR	SIGS	15 Jun 2016
67301	RAHUL GAURAV SISODIA	ENGRS	15 Jun 2016
67302	RANA MITESH KULDEEP	EME	15 Jun 2016
67303	AJAY KUMAR	EME	15 Jun 2016
67304	GUR PREET SINGH	SIGS	15 Jun 2016
67305	AKSHAT VASHISHTHA	SIGS	15 Jun 2016
67306	GAURAV JASWAL	SIGS	15 Jun 2016
67307	AAKASH ARORA	ENGRS	15 Jun 2016
67309	J SANDILYA	ENGRS	15 Jun 2016
67310	RAVI KUMAR SINGH	ARTY	15 Jun 2016
67311	SAVYA SANCHI	ENGRS	15 Jun 2016
67312	VINEET LAKHANPAL	AC	15 Jun 2016
67313	VINAY SRINIVASAN	EME	15 Jun 2016
67316	HIRDEKAR SHISHIR BHAGAWAN	EME	15 Jun 2016
67317	ABHISHEK SINGH	EME	15 Jun 2016
67318	SUMAN KUMAR SARKAR	ENGRS	15 Jun 2016
67319	JOSHI GIRISH GOPAL	EME	15 Jun 2016
67320	UTKARSH ACHARYA	SIGS	15 Jun 2016
67321	RAJAT SHARAWAT	AAD	15 Jun 2016
67322	SURYAWANSHI ANIRUDHA DILIPSINH	ENGRS	15 Jun 2016
67323	NEERAJ RAWAT	ENGRS	15 Jun 2016
67324	TEJAS DEEPAK MEHTA	SIGS	15 Jun 2016
67325	BIDKAR KIRTIKUMAR JAYAPRAKASH	ENGRS	15 Jun 2016
67326	AASHISH BHAT	SIGS	15 Jun 2016
67327	NEERAJ DAHIYA	EME	15 Jun 2016
67328	RAM AVTAR SINGH SIVASH	ARTY	15 Jun 2016
67329	JANGID YASHPAL RAMKUMAR	EME	15 Jun 2016

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
67330	RAHUL GINDE	ENGRS	15 Jun 2016
67331	WASIM SIDDIQUI	ENGRS	15 Jun 2016
67332	JEENESH H PAI	EME	15 Jun 2016
67333	ASHISH PANDEY	SIGS	15 Jun 2016
67334	SANMEET SINGH	AC	15 Jun 2016
67336	HAMITESH SINGH	EME	15 Jun 2016
67337	NADAGADALLI AKSHAYKUMAR AV	ENGRS	15 Jun 2016
67338	ARUN NAIR V	ENGRS	15 Jun 2016
67339	P VIPIN MENON	SIGS	15 Jun 2016
67340	AVINASH KUMAR MISHRA	EME	15 Jun 2016
67343	WAIDANDE RAHUL DAVID	ARTY	15 Jun 2016
67345	JASMINDER SINGH GOURAYA	SIGS	15 Jun 2016
67347	PRABHMEET SINGH MANIK	SIGS	15 Jun 2016
67348	VIVEK CHANDRA	SIGS	15 Jun 2016
67349	SAPAMCHA MOMO	ARTY	15 Jun 2016
67351	GAURANG KAUSHIK	SIGS	15 Jun 2016
67352	RAMAN KOHLI	SIGS	15 Jun 2016
67353	RAJNEESH KUMAR PATYAL	SIGS	15 Jun 2016
67354	ATUL NAYYAR	SIGS	15 Jun 2016
67355	SHIKHARE ABHAY ASHOKRAO	ENGRS	15 Jun 2016
67356	ABHISHEK BHARADWAJ	SIGS	15 Jun 2016
67357	VEMIREDDY KRANTHI KUMAR	ENGRS	15 Jun 2016
67359	RAMPRASAD JOSHI R	SIGS	15 Jun 2016
67360	VINEET DAGADU KALOKHE	ENGRS	15 Jun 2016
67361	JAIDEEP ROY	ENGRS	15 Jun 2016
67362	ROHIT SINHA	ENGRS	15 Jun 2016
67366	M JAYPRAKASH UDDHAVRAO	ENGRS	15 Jun 2016
67368	SUMEET GHOSH	EME	15 Jun 2016
67369	KARTHIKEYAN R	EME	15 Jun 2016
67371	KANWARJIT SINGH	SIGS	15 Jun 2016
67372	SANDEEP SINGH	AVN	15 Jun 2016
67374	PADMESH DUVEDI	ENGRS	15 Jun 2016
67375	SUDHARSAN B	ARTY	15 Jun 2016
67376	SANDEEP DEVAIAH KS	EME	15 Jun 2016
67377	SUNIL KUMAR	SIGS	15 Jun 2016
67378	GUNJAN	ARTY	15 Jun 2016
67379	ABHINAV LAL	ARTY	15 Jun 2016
67380	DUSHYANT SINGH	SIGS	15 Jun 2016
SL04951	SRIDHAR V	SL APTC	14 Jun 2016

IC NO.	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF PROMOTION
IC-63247	ARVIND JADLI	ENGRS	14 JUN 2016
IC-67283	RAJAT SHARMA	ENGRS	15 JUN 2016

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
MAJ TO BE LT COL

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65291	ANUPAM CHAURE	JAG	03 Nov 2015 (Pay & Allowances wef 12 Aug 2016)

The President is pleased to make the following provisional promotions. These promotions will be subject to the outcome of the Civil Appeal No 9367-9369/2011 titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & Others :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (WS)
MAJ TO BE LT COL

WS NO.	NAME	Arms	Date of Promotion
WS-00682	Meghana Dave	ASC	07 Sep 2016
WS-00709	Pushpa Kapri	ASC	07 Sep 2016

The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

IC No	Name	Arm
72199	SUMEET S LAHANE	AC
72200	GAURAV HRIDAYA	INF
72201	YOGENDRA KATHAYAT	INF
72202	TUL BAHADUR GURUNG	INF
72203	VAIBHAV KUMAR MISHRA	INF
72204	ROHIT SALARIA	INF
72205	VIKRANT DHIMAN	INF
72206	ANUJ SHARMA	INF
72207	AJAY DHANIK	ENGRS
72208	PRABHAT SINGH RANA	INF
72209	SUNNY GURUNG	INF
72210	RUDRAKUMAR C SULIKERI	ARTY
72211	ABHISHEK KUMAR	SIGS
72212	VIKAS YADAV	INF
72213	RAMPREET SINGH	INF

72214	AVINASH SAHANI	INF
72215	SIDDHARTH MISHRA	ARTY
72216	VIKASH	AAD
72217	SAURABH TRIPATHI	INF
72218	PARAMJEET JAKHAR	INF
72219	SUJAY SANTOSHKUMAR GHORPADE	ARTY
72220	SETU VIKAS	ARTY
72221	KALE MANAS MADHUKAR	INF
72222	VIJESH KUMAR	INF
72223	RAVINDER SINGH	EME
72224	GIRISH KUMAR B V	MECH
72225	VIVEK SUBHASH KALUKHE	AC
72226	GARJINDER SINGH	ARTY
72227	ANSHUMAN GAIROLA	INF
72228	CHITRE VAIBHAV PRAKASH	AOC
72229	KARTIKEYA MANRAL	INF
72230	PRIYANK PURI	ARTY
72231	ASHOK JAKHAR	INF
72232	SHINDE SHRIKANT PANDHARINATH	ARTY
72233	ANKIT MISHRA	INF
72234	B SARAVANAN	INF
72235	MADHAV BASAVARAJ ILIGER	ARTY
72236	MANISH KUMAR RAI	ARTY
72237	ABHAY SHARMA	ARTY
72238	RAVI PRAKASH SINGH	INF
72239	PALUGULLA MASTANREDDY	INT
72240	ANADI JYOTI SINGH	ARTY
72241	ROBIN THAKUR	ARTY
72242	PUSKAR BASU	ARTY
72243	SAKIL AHMAD	ARTY
72244	SNEHIT NIRANJAN GAWANDE	AAD
72245	PUJAM MANHAS	INF
72246	PRAVEEN KUMAR SINGH	ARTY
72247	LAMA BIKASH	ASC
72249	MANEET KUMAR PANT	INF
72250	TEJAS BHARAT DESHPANDE	INF
72251	MHAKALA SHRAVAN KUMAR	INF
72252	NITIN DHAANIA	INF

72253	NAVIN SHIRODKAR	EME
72254	AJAY SINGH PATHANIA	ASC
72255	VINEET KUMAR	ARTY
72256	BARIDE TANMAY MUKUND	AC
72257	SHREE RAM BHAMU	INF
72258	AVNEET KUMAR	INF
72259	NEERAJ KUMAR DUBEY	AOC
72260	HEMANT DUTTA	INF
72261	RAJ SINGH	ARTY
72262	RAJEEV BOPCHE	SIGS
72264	BRIJESH KUMAR	ASC
72265	GAURAV DAHIYA	INF
72266	DEEPAK DALAL	ENGRS
72267	SHARAD SAGAR JOSHI	ARTY
72268	AVINASH KUMAR	ARTY
72269	RAJAT GAUR	SIGS
72270	GIRISH CHANDRA JOSHI	INF
72271	RANJEET SINGH	AAD
72272	PRITAM PRYADARSHI	INF
72273	ABHISHEK SHARMA	ASC
72274	ALOK KUMAR SINGH	INF
72275	PALWINDER SINGH	ASC
72276	DHIRENDRA PRATAP SINGH	INF
72277	SUSHANT RAI	INF
72278	SHIKHAR TYAGI	ARTY
72279	SAURABH	ARTY
72280	NIKHIL JHA	ENGRS
72281	ABHIJEET SINGH	INF
72282	NAVJOT SINGH	ARTY
72283	SANGAMESH SHIVABASAPPA MOLE	INF
72284	NISHCHAL BHARADWAJ	AOC
72285	SHARMA BALJIT JAGANNATH	ARTY
72286	GAURAV TEWARI	AC
72288	ALIYAR A	INF
72289	VIPIN BAIS	INF
72290	RAKESH SINGH	INF
72291	ANUBHAV SHARMA	ARTY
72292	ANKIT SINGH	AC
72293	AMBESH BHASKAR	MECH
72294	ROHIT KUMAR	ARTY

72295	SNEH KUMAR	ARTY
72296	ATTISH SHARMA	INF
72297	TAJVIR KADYAN	AOC
72298	ANMOL KUMAR	EME
72299	RAHUL VERMA	MECH
72300	PAWAN BHARDWAJ	INF
72301	SUYOG GOWARDHAN KHADATKAR	ARTY
72302	SAVANT SHOUNAK SUSHIL	AEC
72303	RANDEEP SINGH RANDHAWA	INF
72304	SANDEEP SINGH	ARTY
72305	NIKHILESH KUMAR SAHU	ARTY
72306	SAHIL DUA	EME
72307	V RAHUL SAXENA	INF
72308	PAWAN KUMAR DUBEY	ENGRS
72309	KARAN KHANNA	ARTY
72310	RAJEEV RANJAN RAI	ASC
72311	AMAN LAMBA	INF
72312	SAGAR BASTIA	INF
72313	ROHAN SINGH RAWAT	INF
72314	SAURABH SIDDHARTH	INF
72315	MAHAVEER PRASAD	AVN
72316	ARNAB ANAND SANYAL	ARTY
72317	YASHOVARDHAN BHATI	INF
72318	DILEEPU KUMAR SANAPALA	MECH
72319	RAGHAVENDRA SINGH RATHORE	AAD
72320	JIGMET SINGEY	INF
72321	DHRUV VASHIST	ASC
72322	ABHISHEK SHARMA	INF
72323	NIKHIL TEOTIA	ARTY
72324	DEEPAK SINGH MEHTA	INF
72325	ANKIT THAKUR	ARTY
72327	KUNAL SHARMA	INF
72328	VALAPARLA VIDYA SAGARA RAO	INF
72329	VASUDEO DAMODAR AWARI	ARTY
72330	DEVENDRA SINGH	INF
72331	ANURAG DWIVEDI	INF
72332	AMIT S BARADWAJ	AOC
72333	HARISH THAKUR	INF
72334	GAURAV KUMAR THAPLIYAL	INF
72335	SANDEEP KUMAR JAKHAR	AOC

72336	BINU V S	ENGRS
72337	SANTOSH KUMAR PANDEY	MECH
72338	BASANT KUMAR VISHWAKARMA	INF
72339	VINOD CHANDRA NORKI	AC
72340	DEVANSHU PALIWAL	ARTY
72341	VED PRAKASH	AAD
72343	ANUPAM PRAJAPATI	INF
72344	ANIMESH KUMAR JHA	EME
72345	TOSHIKABA	INT
72346	KUMAR RISHABH	INF
72347	AMIT SINGH TOMAR	AC
72348	ASHUTOSH KUMAR	SIGS
72349	VINOD DHANKHAR	ARTY
72350	AHMED PASHA	INF
72351	KULDEEP SINGH	INF
72352	DEEPAK KUMAR SINGH	ARTY
72353	AMIT KUMAR SINGH	ARTY
72354	MANGESHWAR SINGH	INF
72355	DINESH KHANDERAU KAMBLE	ASC
72356	ARUN BHARDWAJ	ARTY
72357	NEERAJ PARMAR	ENGRS
72358	SUSHIL BISHT	ARTY
72359	SANDEEP KUMAR	INF
72360	RANDHISHWAR SINGH	INF
72361	AMOD KUMAR	ASC
72362	VIKAS PANGHAL	AC
72363	SUMIT KUMAR MAHATA	INF
72364	TAPOSH BOSE	ASC
72365	KAVI KASHYAP MITHILAJEE	AAD
72366	RAJ KAMAL	ARTY
72367	MOHIT SINGH	ARTY
72368	NANHA DURGESH	ARTY
72369	ANSHUL KUMAR YADAV	INF
72370	LIJU R	INF
72371	ARUN KUMAR PANDEY	INF
72372	SONUP KUMAR TRIPATHY	ARTY
72373	BRESH SINGH	AC
72374	SANJESH KHYALIA	INF

72375	RENJITH R	EME
72376	MD RAJA HUSSAIN AZAD	ASC
72377	SATYA JEET	AOC
72378	DHARMENDRA PANDEY	EME
72379	SACHIN KUMAR AGARWAL	INF
72380	PREETAM KUMAR	ENGRS
72381	YUDHVIR SINGH TAKHAR	ARTY
72382	CHANDAN SINGH	INF
72383	RAKESH SINGH	INF
72384	ANAND SWARUP	MECH
72385	NARENDER SINGH	INF
72386	AMRESH	AOC
72387	AMAR KANT SHARMA	ARTY
72388	ABHINAV BHARDWAJ	INF
72389	MEHTAB SINGH KHATANA	INF
72390	PRAVIN KUMAR	INF
72391	ANUJ KUMAR	INF
72392	ADITYA SINHA	ASC
72393	AMIT THAPA	INF
72394	UMESH SHRIVASTAVA	ARTY
72395	KARUNAKAR UPADHYAY	ARTY
72396	RAHUL MALIK	ASC
72397	ROHAN NANDAL	AOC
72398	S BALASUBRAMANIAN	INF
72399	VIVIAN LAZARUS	SIGS
72400	AJAY PAL SINGH MANN	AC
72401	VIJENDER PAL SINGH	ARTY
72402	RAKESH RANJAN	INF
72404	RADHAKRISHNAN P	INF
72405	SUMEET LUHACH	INF
72406	SIDDHARTH SAMANT	ARTY
72407	ROHIN ANAND	ARTY
72408	KSHITIJ KHARE	ARTY
72410	DEVESH SINGH	INF
72411	MAYANK BHARDWAJ	AOC
72412	PANKAJ CHAND THAKUR	ENGRS
72413	PRIYADARSHI	AAD
72414	NIKHIL PARGAL	ARTY

72415	AMIT KUMAR YADAV	INF
72416	NAVEEN KUMAR BOHRA	ARTY
72417	ABHISHEK KUMAR	INF
72419	MAHABIR SINGH	INF
72420	HARISH GARG	ARTY
72421	JAIVEER SINGH	AVN
72422	DILBAGH SINGH	ARTY
72423	VIPIN P MENON	AAD
72424	SATISH KUMAR R	ENGRS
72425	ANKUR CHAUDHARY	INF
72426	SURESH BHATT	ARTY
72427	ROHIT SHARMA	INF
72428	DIVYADARSHAN	INF
72429	AJAY KUMAR	AC
72430	SOMVEER SINGH	ARTY
72431	PANCH DEO SINGH	INF
72432	PRIYANK UPADHYAY	INF
72433	KULA PRASAD CHETTRI	AOC
72434	DOUNGUL THONGGOULEN HAOKIP	INF
72435	RAVINDER SINGH KUNTAL	ARTY
72436	ARVIND KUMAR	ENGRS
72437	SAURABH KALA	ARTY
72438	VIKAS GURUNG	INF
72440	ANKUR SAXENA	INF
72441	RAVEESH KUMAR	INF
72442	MAHADEO SANJAY SURYAWANSHI	ARTY
72444	HARI LOUIS GOPALAKRISHNAN	INF
72445	AJAY CHAMBIAL	INF
72446	VIVEK KRISHNA PAINULY	INF
72447	ASHISH KUMAR	ARTY
72448	ARUN KUMAR SHARMA	INT
72449	AMIT KUMAR SAINI	INF
72450	KSHITIJ MISHRA	EME
72451	TARUN WADHWA	ARTY
72452	RAVI DHAKA	MECH
72453	SUBODH KUMAR GANGWAR	ASC
72454	HARENDRA KUMAR	INF
72455	VIKAS KUMAR	INF
72456	ABHISHEK KUMAR SINGH	SIGS

72457	NAGARE ASHIRWAD RAJABHAU	INF
72458	AMIT KUMAR	INF
72459	KULDEEP SHARMA	AC
72460	RITESH ROY	ARTY
72461	KANWALJEET SINGH BUDHWAR	INF
72462	SHILPAM BHARALI	ENGRS
72463	SAURABH LAHIRI	ARTY
72464	BIBHANSHU DHONDIYAL	INF
72465	ATUL SRIVASTAVA	AAD
72466	VINAYAKUMAR V	INF
72467	RADHARAMAN GOSWAMI	ARTY
72468	SHETTY GAURAV MOHAN	INF
72469	ARUN PANDEY	AVN
72470	AMIT JASROTIA	ARTY
72471	PRANAV PRABHAT	INF
72472	DEEPENDRA MISHRA	INF
72473	GURINDER RANA	ARTY
72474	RAJKUMAR SANGWAN	AOC
72475	PANKAJ UPADHYAY	ARTY
72476	VIVEK SINGH	ARTY
72477	RAHUL	ASC
72478	ABHISHEK SHARMA	AOC
72479	SACHIN KUMAR	INF
72480	YOGESH HOODA	INF
72481	PANKAJ TYAGI	AC
72482	ARPIT RAMAN	INF
72483	SAMBASIVA RAO KORRAPATI	INF
72484	KARAN GOSWAMI	EME
72485	AMIT KARANPURIA	INF
72486	BASAVARAJ V MATHAPATI	ASC
72487	DEEPANSHU CHAUDHARY	ARTY
72488	DEEPAK JOSHI	INF
72489	MUBARAKALI B MUJAWAR	AC
72490	RAJASEKHAR BINUMON	INF
72491	RAVI PANWAR	AOC
72492	ARVIND RAWAT	AAD
72493	AJAY PANDEY	AOC
72494	ASTIK KUMAR	INF

72495	ANURAG BISHT	INF
72496	ADARSH DUBEY	ARTY
72497	ABHAY RANA	ARTY
72498	AMIT SINGH	INF
72499	THAPER HARISH PRAKASH	ARTY
72500	VARUN JASWAL	ENGRS
72501	ANUBHAV TIWARI	ASC
72502	PANKAJ	ARTY
72503	NAVEEN SINGH	ARTY
72504	RAVI RANJAN KUMAR	INF
72505	DEEPAK SINGH	INF
72506	SATISH KUMAR YADAV	INF
72507	ARVIND SHARMA	ASC
72508	RAHUL CHAUHAN	ARTY
72509	ABHIJIT SHARMA	ARTY
72511	ABHISHEK	INT
72512	RAVI THAPA	MECH
72513	JITENDER RATHORE	AC
72514	DIGVIJAY SINGH CHAUHAN	EME
72515	AVINASH KUMAR	ARTY
72516	SHAJI P V	ASC
72517	SAJAD AHMED	ARTY
72518	ASHISH PANDEY	INF
72519	SHUBHAM AGARWAL	AAD
72520	SAHIL CHHIKARA	AOC
72521	SURENDER SINGH	ENGRS
72522	PANKAJ SHARMA	INF
72523	DEEPAK SINGH THAKURI	INF
72524	VIKAS SINGH BASERA	ARTY
72525	K S SOORAJ	ARTY
72526	SURINDER KUMAR	ARTY
72527	BIKRAM SINGH BADAL	ARTY
72528	VINOD KAUSHAL	INF
72529	GURIQBALPARAMPREET SINGH	INF
72530	ARPIT SHARMA	SIGS
72531	VIKRAM YADAV	MECH
72532	ADITYA	ARTY
72533	MANISH KUMAR PATHAK	ARTY
72534	RAHUL SHUKLA	INF

72535	VIDHAN SUNWAR	INF
72536	SAKET RANJAN	INF
72537	SANDEEP RATHI	INF
72538	GAURAV CHAVAN	INF
72539	VARUN SHARMA	AC
72540	MUKESH KUMAR	MECH
72541	RAKENDU UPADHYAY	ASC
72542	AMIT SAH	INF
72543	S ARUN	INF
72544	ANKIT BHISHMA	ENGRS
72545	AJAY KUMAR	ARTY
72546	PANKAJ KUMAR PANDAY	INF
72547	DAVINDER PAL SINGH	INT
72548	LONKAR ASHWIN RAMESH	AAD
72549	ARJUN DAS A	INF
72551	SIMTHESH KUMAR DALAL	INF
72552	VINOD KUMAR K S	ASC
72553	PAWAN KUMAR	INF
72554	HIMANSHU PUROHIT	INF
72556	NITESH KUMAR	INF
72557	JAYANT SINGH BALYAN	SIGS
72558	RAUT TUSHAR ASHOK	INF
72559	D MADONA ENRICH	ARTY
72560	BIBHUTI BHUSAN PANIGRAHI	ASC
72561	AVINASH KUMAR SRIVASTAVA	ARTY
72562	NIKHIL KUMAR	ARTY
72563	A VIJAY KUMAR	INF
72564	SAHIL JANGIR	INF
72565	HEMCHANDER SINGH	INF
72566	ANURAG RAJAWAT	EME
72567	ANIL KANDPAL	ENGRS
72568	SHIV PRATAP SINGH	INF
72569	ABHISHEK KUMAR	ARTY
72570	BHUPENDRA PAL SINGH	INF
72571	HARI NEEL VARUN SHARMA	ARTY
72572	MANISH TOMER	INF
72573	BHARAT SINGH	INF
72575	PRIYARANJAN KUMAR THAKUR	AC

72576	BRIJ BHUSHAN VERMA	AC
72577	BHARAT SHARMA	ARTY
72578	ABHINAV TRIPATHI	INF
72579	ABHISHEK KUMAR TIWARI	INF
72580	BUNNY SHARMA	ASC
72581	ABHAY RATHORE	AAD
72582	RAHUL KUMAR ALLEY	INF
72583	SUMEET KHAJURIA	INF
72584	MANTAVYA KUMAR	INF
72585	SAVALE ANUPAM SHRIKANT	ARTY
72586	ROHIT KUMAR RAI	INF
72587	PARITOSH SINGH KANWAL	INF
72588	RANJEET BHAMBHU	EME
72589	RANJAN THAPA	AOC
72590	ANIRUDHA CHAKRABARTY	INF
72591	OKRAM PAPU SINGH	INF
72592	AMAN MAHANT	AOC
72593	GIRI VIKAS RAJENDRA	ARTY
72594	ANKIT SHARMA	SIGS
72595	YOGENDER GURUNG	ARTY
72596	HANDEEP RAJ PURI	ARTY
72597	TIJU THOMAS	INF
72598	RAVIRANJAN KUMAR SINHA	ARTY
72599	JATIN GAMBHIR	INF
72600	VENKAT SHARDA	ASC
72601	GARGE KEDAR PADMAKAR	ARTY
72602	DALJEET SINGH	MECH
72603	VIKRAM SINGH RATHORE	INF
72604	ANSHUL YADAV	AC
72605	AKASH RAJ	ARTY
72606	SHIVA GURUNG	ARTY
72607	DHIRENDRA SINGH RAGHAV	EME
72608	ARNAV BAHUGUNA	ENGRS
72609	SANDEEP VERMA	INF
72610	NAVJIT SINGH	EME
72611	SHAILESH KUMAR YADAV	SIGS
72612	JITENDRA SINGH RAMOLA	ENGRS
72613	NAVEEN KUMAR	AAD
72614	SIDDHARTHA KATIYAR	ENGRS

72615	SUSHIL KUMAR	AC
72616	SUDEEP MAJUMDAR	INF
72617	RAKSHIT SHARMA	EME
72618	CHANDAN KUMAR	EME
72619	RAAS SRIVASTAVA	ENGRS
72620	INDRA KUMAR SAHU	SIGS
72621	RAUNAK MALIK	SIGS
72622	CHANCHAL SHARMA	INF
72623	LOHIT AHOM	ENGRS
72624	UDAY VIR SINGH	EME
72625	NIMISH SAMBYAL	INF
72626	RAVI SHANKER SHUKLA	EME
72627	PRAKASH RAIKWAR	ARTY
72628	SANDEEP KUMAR	ENGRS
72629	KULHRIDAY SINGH BHALLA	SIGS
72630	PRASHANT SINGH	SIGS
72631	AMAR NATH PAUL	ENGRS
72632	SUDESH PRATAP SINGH	EME
72633	VARUN DIXIT	ARTY
72634	AMIT DIMRI	INF
72635	P ARVIND	ENGRS
72636	K SARAVANA KUMAR	SIGS
72637	ARUPANANDA SAHOO	AC
72638	AMIT KUMAR	ASC
72639	MOHIT MALIK	ENGRS
72640	D'SOUZA ALLEN ALBERT	ENGRS
72641	VISHAL SHARMA	SIGS
72642	KAMAL JANGID	MECH
72643	SALABH BHATNAGAR	ARTY
72644	PURUSHOTTAM KUMAR RAJNEESH	SIGS
72645	BHUWAN CHANDRA JOSHI	ENGRS
72646	ASHOK KUMAR CHHIKARA	ARTY
72647	PANKAJ KUMAR TIWARY	EME
72648	ABHISHEK SHAHRAWAT	EME
72649	DEEPAK CHAUHAN	SIGS
72650	ASHISH DWIVEDI	SIGS
72651	JOYDEEP CHOWDHURY	INF
72652	GHANEKAR VISHWAJEET SHREEPRAKASH	SIGS

72653	JATIN SHARMA	INF
72654	HARSHIT CHAHAR	ASC
72655	S VIGNESH	INF
72656	RAGHAV PANDE	EME
72657	YASHVIR SINGH	INF
72658	JAGESHWAR GAUNIYAL	ARTY
72659	VED PRAKASH	SIGS
72660	YASHU TRIPATHI	EME
72661	GAURAV KUMAR	SIGS
72662	ROHIT D SAPRE	ENGRS
72663	SHAMBHU KUMAR SINGH	INT
72664	DALY FRANCIS	ENGRS
72665	BIBIN N BHUVANENDRAN	INF
72666	ANKIT JOON	EME
72667	CHITRESH BISHT	ENGRS
72668	VARUN SINGH	ENGRS
72669	JAI SINGH SOLANKI	INF
72670	CHINMOY NANDAN GHOSH	ENGRS
72671	RAMESHKUMAR R	EME
72672	JADHAV DHIRAJ BHARAT	ENGRS
72673	PRAMOD KUMAR TRIPATHI	ENGRS
72674	DUSHYANT RATHI	SIGS
72675	DEEPANKAN SHARMA	AAD
72676	MOIRANGTHEM PHUNILKANTA SINGH	ENGRS
72677	MASTANVALI SHAIK	EME
72678	AMARDEEP SINGH	EME
72679	BHARTENDRA KAUSHIK	EME
72680	UPRETY SURYAMADHUR DEEPCHANDRA	INF
72681	HUIDROM NIRANJAN SINGH	SIGS
72682	PRAKHAR TRIPATHI	AC
72693	SRINIVASAN SUNDER RAJ	AEC
72698	SANDEEP CHAND	MF

—12 Jun 2016

Pers No	Name	Arms	Date of Subs Maj
IC66563	AMBARISH MAHANTA	INF	17-Apr-12
IC71780	DINESH POONIA	AC	12-Dec-15
IC72093	ANAND S	ENGRS	12-Dec-15
IC72287	VIRENDRAPAL SINGH DEORA	ARTY	12-Jun-16
IC72403	SIDDHARTHA SINHA	INF	12-Jun-16

IC75758	MEHUL O ASHNANI	ENGRS	14-Jun-15
SL05008	SIDDHARTH T RAMCHANDRAN	AEE EM/IEM	24-Jul-15
SL05010	KITAB SINGH RANGI	AEE/BR/ASW	24-Jul-15
SS43646	BHAGWATI SINGH RATHORE	AOC	19-Apr-16
SS43665	ROHIT KUMAR	ASC	19-Apr-16
SS43671	AJAY KUMAR	ENGRS	19-Jul-16
SS43686	SIDDHARTH VISHWANATHAN	INF	19-Apr-16
SS43694	NEERAJ KHATRI	INF	19-Apr-16
SS43766	ABHISHEK	AOC	19-Apr-16
SS43767	RUBINA KAUR	INT	19-Apr-16
73301	KISHAN SINGH	AC	17 Oct 14
73451	AJIT BHARDWAJ	ARTY	22 Apr 15
73453	PRANAV UPADHAYAY	INF	22 Apr 15
73454	MADHUR SHUKLA	INF	22 Apr 15
73456	SANRAM SINGH	INF	22 Apr 15
73618	ANJESH KUMAR YADAV	EME	22 Oct 2015
73621	RAVINDER KUMAR	EME	22 Oct 2015
73623	ANISH SINGH TOOR	INF	22 Oct 2015
73624	VARUN TRISAL	ARTY	22 Oct 2015
73625	VARUN RAO	INF	22 Oct 2015
73662	ABHINANDAN	ARTY	20 Apr 2015

IC No	Name	Arms
69578	VIKALP PUROHIT	ENGRS

—12 JUN 2011

REGULAR ARMY
SPECIAL COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

SC NO	NAME	ARM
00613	TARIQ AHMED MANGRAL	AOC
SL-05264 (SC-00614)	PETER JOHN	ENGRS
00615	PAWAN SINGH	INF
00616	PRASHANT THAPA	ASC
00617	KAILASH MALLA	INF
00618	MANVIRENDRA SINGH GUSAIN	ARTY
00619	ANUP THAPA	INF
00620	PARITOSH KUMAR SARKAR	INT
00621	GURUNG SAGAR	INF

00622	RAMESH SINGH	MECH
00623	RAM SAWROOP	AC
00624	SHYAM KUMAR YADAV	AAD
00625	AMIT THAPA	INF
00626	SHAMSHER SINGH	ENGRS
00627	SAJET JOSEPH	ARTY

— 12 Jun 2016

SL-05397 (SC-00628)	ANIL KUMAR ROHIL	ARTY
------------------------	------------------	------

— 12 Jun 2016

REGULAR ARMY
SPECIAL LIST COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

SL No	Name	Arm
05119	SUBHASH CHANDRA RAY	SL ASW
05120	ELVIS JOSEPH CUTINHA	EMAE
05121	RAM PAL	SL IEM
05122	M MURUGAN	SL RO
05123	RAJEEVAN KT	SL RO
05124	SAJAL KANTI DAS	SL RO
05125	SOHAN SINGH	SL RO
05126	MADAN MOHAN	SL RO
05127	PANNA LAL	SL RO
05128	RAJNATH SINGH	SL RO
05129	SIVARAJAN S	SL RO
05130	ARVIND KUMAR	SL RO
05131	SATISH KUMAR	SL RO
05132	A AROCKIA DOSS	SL IEM
05133	RADHESHYAM SINGH	SL RO
05134	BALAJI GUBBALA	SL RO
05135	KANCHAN SIKDAR	SL RO
05136	BHARATH DP	SL AO
05137	BALWANT SINGH	EMAE
05138	RAJVEER SINGH	SL RO
05139	KULVINDER SINGH	SL RO
05140	IMTINUNGTOK AO	SL RO
05141	ADDAPALLI VENKATA GAUTAM NAIDU	SL RO
05142	TARUN KUMAR YADAV	SL RO
05143	UMED SINGH	SL RO
05144	GURBACHAN SINGH	SL RO

— 30 Aug 2016

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)
CAPT TO BE MAJ

SS No	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
43828	BIKRAM JEET	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43830	PANKAJ BALAURIA	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43831	VARINDER SINGH	AOC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43833	PIYUSH KUMAR PANDEY	MECH	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43835	TERANCE P GONSALVEZ	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43836	PETA MAHESH	ASC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43837	MUNISH VERMA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43838	MOHANAPRIYAN T	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43839	PARAS SAMANT	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43840	SUBHASH CHAND	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43841	MADHUR UPADHYAY	ENGR	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43845	SANDEEP DEVRANI	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43847	PARMJEET SINGH	EME	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43848	KUMAR AATISH SHASHI	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43849	TRIBHUWAN SINGH CHANDEL	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43850	CHITHADE HRISHIKESH YOGESH	ASC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43852	M E SRINIDHI	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43853	AKASH SHARMA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43854	JAYAKRISHNA S	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43856	PANMEI KABIPHUN	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43858	VIRENDRA SINGH NATHAWAT	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43859	ATUL CHANDRA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43860	JAGANNATH PAUDYEL	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43861	VIVEK SHARMA	SIGS	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43862	SHAMEER M S	SIGS	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43863	ABHINAV KUMAR	AAD	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43866	SHIVENDRA MANI TRIPATHI	AOC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43867	KARAN SINGH CHIB	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43868	SACHIN DILIP PAWAR	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43869	VINKAL PRASHAR	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43870	LIENGOUSIEM K GANGTE	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43871	SUNDEEP KUMAR	ENGR	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43873	NILESH KEWAL SURYAWANSHI	ENGR	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43874	K P RAJIL PREMRAJAN	EME	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16

43875	SANJEEV KUMAR	MECH	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43877	NITIN SHARMA	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43878	RAMANDEEP SINGH DHANJAL	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43879	THAKUR NITINKISHOR	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43880	KUNAL A SETHI	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43881	MITHILESH KUMAR UPADHYAY	ASC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43882	SACHIDANAND DWIVEDI	AAD	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43883	TRILOK KUMAR T	SIGS	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43885	HARINAM SINGH	ASC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43887	DAVID MANLUN	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43888	VISHVA DEEP SINGH	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43889	JAI DUTT BHATT	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43890	ARUN RAJAN	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43891	VINCENT V KHIANGTE	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43892	ATUL SHARMA	INT	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43894	PRADEEP KUMAR	EME	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43895	YOGESH GURUNG	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43896	GANGADHAR SAI K	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43897	MUKESH KUMAR	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43898	GAURAV CHAMOLI	EME	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43899	KAMALJEET SINGH	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43901	ANSHUL BISHT	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43902	ABHIJEET SINGH RATHOD	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43903	PATIL PRAHLAD	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43904	ALPESH SINGH	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43907	VIKAS PANDEY	AVN	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43908	PANKAJ KUMAR SINGH	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43910	ISHWAR PAL	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43911	RAVINDRA SINGH SHEKHAWAT	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43912	PARDEEP SHARMA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43913	PAWAN KATARIA	AOC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43914	AMAN RATHORE	SIGS	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43916	SUNNY KUMAR SANGRIA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43917	ANUJ KUMAR	ASC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43919	AASHISH CHAUHAN	ARTY	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43920	DIVESH KHANKA	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43921	VISHAN PRATAP SINGH BHADAURIA	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43922	VIKRANT RAJE BHONSLE	AC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43923	KULKARNI AKSHAY NISHIKANT	EME	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16

43925	RAVI DUTT YADAV	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43926	ARJUN VISVESWARANRAM	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43929	VARUN SINGH	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43930	SHAKTI SINGH SHEKHAWAT	MECH	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43931	ANKUR PAL	INF	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43932	VIJAY KUMAR SHARMA	ENGR	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43935	GAGANDEEP SINGH	AOC	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43937	AJAY UPADHYAY	ENGR	20 Mar 10	SSC-89 (NT)	20 Oct 10	20 Oct 16

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)
CAPT TO BE MAJ

SS No	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
43832	AMBIKA JODHA	AAD	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43834	SWARNIMA THAPLIYAL	EME	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43843	AKANKSHA MISHRA	INT	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43844	MONICA GEORGE	AOC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43846	SAVITA GARHWAL	AVN	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43855	SHIPALI SHAHI	ASC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43865	MONIKA MALL	ASC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43872	SNEIHA GURUNG	AOC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43884	PRIYANKA KUMARI SINGH	AEC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43886	NIDHI	ASC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43900	KRIKA KANWAL	ASC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43905	SHIV KUMARI	AEC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43906	SHRUTI KIRTI RAGHAV	ASC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43909	NITHI C J	INT	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43924	MERCY KIMPUI	AOC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43927	ANJU BALA	AOC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43928	RITU THAPLIYAL	EME	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16
43933	SHIVANI SINGH	AEC	20 Mar 10	SSCW-03(NT)	20 Oct 10	20 Oct 16

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
LT TO BE CAPT

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Capt
73301	KISHAN SINGH	AC	17 Oct 10
73451	AJIT BHARDWAJ	ARTY	22 Apr 11
73453	PRANAV UPADHAYAY	INF	22 Apr 11
73454	MADHUR SHUKLA	INF	22 Apr 11
73456	SANGRAM SINGH DEORA	INF	22 Apr 11

73618	ANJESH KUMAR YADAV	EME	22 Oct 2011
73621	RAVINDER KUMAR	EME	22 Oct 2011
73623	ANISH SINGH TOOR	INF	22 Oct 2011
73624	VARUN TRISAL	ARTY	22 Oct 2011
73625	VARUN RAO	INF	22 Oct 2011
73662	ABHINANDAN	ARTY	20 Apr 2011

IC No	Name	Arm/Services
77934	SHAIENDRA SINGH KUSHWAH	AC
78009	SUNIL KUMAR BEHERA	SIGs

—08 JUN 2015—

78836	SAURABH DAS	AAD
78866	AMALE DEVIDAS TRIMBAK	INT
78899	AISHVERYA RANJAN	ARTY
78914	RAHUL KUMAR	INF

—14 DEC 2014—

79432	M MANOJ KUMAR	ASC
79501	MAHESHKUMAR ANANDRAYA BHURE	ENGRS

—14 JUN 2015—

80121	SACHIT SHARMA	AC
80136	SAHIL ARORA	ARTY
80142	PRINCE KUMAR PATHAK	INF
80164	ATUL TYAGI	EME
80169	SHAGUN RANA	INF
80170	NAMAN KAPOOR	INF

—15 DEC 2015—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION (SL)
LT TO BE CAPT

SL No.	Name	Arm/Service
05312	IGNACE TIRKEY, VSM	SL APTC
05313	SIBY JOSEPH	TEO AAD
05314	RAHIEM KHAN PATHAN	TEO AAD
05315	P MAHESH KUMAR	RO
05316	ANAND SINGH	AEE B/R&ASW
05317	RANJEET SINGH	TOsT
05318	ANIL KUMAR	BSTEO
05319	JAYAN PP	TEO ARTY

05320	NAGABOOSHANAM M	AEE EM/IEM
05321	SUNIL P JOY	TOsT
05322	VIPEEN MOHANAN	TEO ARTY
05323	RAJESH KUMAR R	IOAB
05324	DINESH KUMAR DUBEY	MASTER AT ARMS (APTC)
05325	DILBAG SINGH	RO
05326	AMRIT PAL SINGH	RO
05327	SREEJITH P	EDN OFFR
05328	S ANIL KUMAR	RO
05329	JINTENDRA KUMAR	RO
05330	PAPINDER SINGH	RO
05331	ABADHESH PAL	EDN OFFR
05332	MALLAVARAPU TH W RAJU	RO
05333	GOVIND RAMA SAWANT	RO
05334	AMIT MUKHERJEE	RO
05335	AMIT KUMAR	RO
05336	SHIVA PRASAD MALLICK	EMAE
05337	YABEZ M	RO
05338	VIJAY SINGH	EDN OFFR
05339	PATIL GANESH JOTIRAM	RO
05340	MAAN SINGH BISHT	RO
05341	DINESH KUMAR	RO
05342	SHANMUGAM G	RO
05343	GOPAL SAXENA	RO
05344	SANDEEP NEGI	AEE B/R&ASW
05345	SANJAY PRATAP SINGH JADAUN	EDN OFFR
05346	ABILASH MC	RO
05347	LAMMINTHANG SINGSIT	RO
05348	HARISH CHANDRA	RO
05349	PANKAJ SHARMA	RO
05350	SR JEEVAKANTHAN	AEE B/R&ASW
05351	HARJINDER SINGH	RO
05352	SAMAY SINGH	RO
05353	PRASANTH MP	TEO AAD
05354	RAKESH KANNOLI	TEO AAD

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)
LT TO BE CAPT

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
48313	ANKUSH KUMAR SHARMA	SIGS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48316	SHUKLA AJAYKUMAR SHESHNARAYAN	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48317	SACHIN SINGH	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48319	ANIL KUMAR DHANDA	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48322	RAJKUMAR	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48323	HARSHIT MALHOTRA	AVN	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48327	ARUN M	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48328	ADARASH RAMA BHAT	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48329	MANMOHAN SINGH CHAUHAN	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48330	NITESH PAWADIA	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48331	NISHANT DAVID JOY	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48334	KARTHIK KUMAR S	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48335	PRINCE TYAGI	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48338	MOHAMMAD MOHSIN KHAN QUADRI	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48341	SUMEET DOGRA	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48345	DHAVAL SACHDEVA	ASC	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48349	SHASHIKANT HEDAGI	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48350	ABHINAY YADAV	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48351	ARUN KUMAR	AOC	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48352	PUSHKAR MALHOTRA	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48353	PRABHJIT SINGH OBEROI	MECH	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48356	VIVEK KUMAR YADAV	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48357	TUSHAR MISRA	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48361	PARDEEP SHARMA	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48362	S MANO VIJAY	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48363	IRENGBAM VISHAL MEETEI	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48364	MANISH CHOUDHARY	SIGS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48365	VARUN RR	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48366	DAKSHESH YADAV	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48367	ANKIT SARASWAT	SIGS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48368	SHAIK GHOUSE PASHA	MECH	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48370	GOUTHAM DEVRAJ S	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48371	MUKUL KUMAR	AOC	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16

48373	SHIVAM RAWAT	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48374	PULKIT KHERA	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48375	PANKAJ KUMAR SINGH	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48377	CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48379	RISHABH THAKUR	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48381	HAGE BHAI	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48383	DEEPAK YADAV	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48386	VINODH KUMAR A	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48390	SOBHIT CHAUDHARY	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48393	PRASHANTH JAJI	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48397	DEEPRANJAN YADAV	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48398	KEDIA JAIDEEP BHAGWATI PRASAD	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48401	NAVJOT SINGH DHALIWAL	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48406	RAGHUL A	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48408	RAJASHEKAR P	ARTY	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48410	ALOK ANAND	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48411	PALLAV VAISHAMPAYAN	AVN	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48414	CARIAPPA P P	AC	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48416	ARULMOZHIVARMAN M	ASC	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48417	SIDDHARTH ROY	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48418	ABHISHEK S PATIL	AVN	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48420	ABHISHEK CHAUHAN	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48423	RAHUL MISHRA	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48424	SHANMUKH KUMAR	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48425	DEEPANSHU PHARTYAL	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48426	NAMAN LAKHOTIA	SIGS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48428	SANATH A	EME	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48429	AVINASH ANANT	ENGRS	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48431	ANKUR ADITYA	INF	14 Sep 14	SSC-43 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
47944	KUMAR ABHISHEK SINGH	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47970	RANDEEP SINGH	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
46723	R RAVI SHANKAR	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46760	TAPKIRKAR OMKAR CHANDRASHEKHAR	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46921	RATNAKAR PANDEY	AOC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46944	MANISH KUMAR	ARTY	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
47102	AJAY PAL SINGH	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

47103	SONU SINGH BHADAURIYA	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47105	RAJIV MEEL	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47107	SUDHARSHAN V	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47109	RAJNI KANT CHOUBEY	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47110	SHEETAL SOOD	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47111	ANEESH KUMAR	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47112	KRISHAN KANT	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47115	KARAN SINGH	SIGS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47116	ROEL MANGLEMZEL NEIHSIEL	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47117	SEIGINKAI KIPGEN	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47118	VINAY NARAIN SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47120	NARENDRA KUMAR SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47121	MANASH RANJAN NAYAK	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47122	BHUPESH RAWAT	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47123	BAL KRISHAN	MECH	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47124	ANKIT KUMAR SIROHI	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47125	RAMESH S	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47129	V LASHITO	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47130	DEEPAK KUMAR	EME	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47133	GAURAV NEGI	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47134	BHARAT SINGH ADHWARIYA	ENGRS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47135	SAI GURU RATHNAKARAN S	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47136	VIJAY KUMAR OJHA	AAD	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47138	AMARENDRA KUMAR	ENGRS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47142	TEJINDER PAL SINGH	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47143	RAJIB CHHETRI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47145	NETAR SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47147	SHARMA ABHINEET DEEPAKKUMAR	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47148	S ROHIT	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47149	B S RAINI LUCKSON	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47152	NAOREM BIBEKANANDA SINGH	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47153	P DHILIPAN	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47155	GAGANDEEP SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47156	MAYANK SINGH	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47159	PAULALPAUL SAMTE	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47160	THANGJAM DANNY SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47162	VEER BAHADUR SINGH	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47163	BINNY THOMAS MATHEW	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47164	ARPIT KAPILA	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

47165	KUMAR GAURAV	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47166	VAISAKH DAS	ENGRS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47167	ANWAR ISRAIL	JAG	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47168	ANKUR SINGH NEGI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47169	VIJAY KUMAR SHARMA	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47170	HIMANSHU SINGH	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47171	RAJAT YADAV	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47172	SANCHIT GARG	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47173	BHAWANI PRATAP SINGH	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47174	PANKAJ KUMAR	EME	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47175	BARRETO STEVE ANTHONY	JAG	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47176	THAPA TEJ SINGH JASWANT SINGH	AAD	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47177	SUNIL GHISING	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47178	PARMEET SINGH CHIPRA	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47179	HARSAN G NITIN	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47181	BAGUL ASHISH RAMDAS	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47182	AMITESH DIXIT	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47183	SANDEEP SINGH	SIGS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47184	LAKSHMI NARAYAN GIRI GOSWAMI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47185	RAVI KUMAR	MECH	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47186	ATUL ADHIKARI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47187	SATYENDRA RATHORE	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47188	PRITHIVIRAJ T	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47189	SHABEEB E	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47191	SAURABH BALI	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47192	SUMIT KOCHUMMAN	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47193	JAI BHAGWAN	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47194	AJAY CHAHAR	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47195	KAVISH AGGARWALA	JAG	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47196	ANKUR TIWARI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47197	KRITARTH KALA	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47198	PRADEEP M	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47199	DEB KUMAR SAHA	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47200	VIKAS SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47202	ANKIT KHAJURIA	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47203	VINAY SINGH	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47204	ANURAG JI DUBEY	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

47205	VINEET SHARMA	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47206	MISBAH UL ISLAM	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47207	SPARSH YADAV	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47208	B VINODKUMAR	INT	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47209	VISHNU S P	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47210	PAVAN APTEKAR	ENGRS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47211	KESWANI MANOJ MOHANLAL	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47212	DIVYA SOOD	JAG	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47213	DIVAKAR KONGBRILATPAM	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47214	ARJUN SINGH	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47215	BALA SUBRAMANIAN S	SIGS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47216	SUMIT KARNDHAR	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47217	MEGHANEEL BORA	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47218	GURUNG ASHISH GOVINDPRASAD	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47219	BADSHA KHAN	AAD	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47222	PRATEEK CHAMOLI	MECH	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47223	T MANG MIN THANG	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47226	RAHUL DEVRANI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47227	JASHIN K V	EME	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47228	MANVENDRA SINGH CHAUHAN	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47229	BIKRAMJEET SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47230	AVDHESH	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47233	WANAKHEDE RAHUL ASHOK	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47234	ROBIN JOSEPH	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47235	MADHAV KUMAR	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47236	UMAR ALI M	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47237	SHIVRAJ UDAYKUMAR DESHMUKH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47238	ABHINAV DWIVEDI	EME	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47239	KARNI PRATAP SINGH RATHORE	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47240	VASUDEV SAHRAWAT	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47241	ANIRUDH SINGH	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47242	VATSALYA TEWARI	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47243	MICHAEL KHUALZALIAN	AAD	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47244	RAJ PAVITAR SINGH	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47245	AMAN KUMAR BANSAL	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47246	PARAG SHARMA	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47247	ISRAR ALI	SIGS	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47249	AKHIL YADAV	MECH	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

47250	VINEET GURUNG	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47255	NITISH YADAV	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47256	BHASKAR SINGH ARYA	JAG	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47260	RAKESH KUMAR BAIS	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47263	SHAILESH NAIR	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47264	ABHIMANYU SHARMA	AC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47265	SHUSHANTO DAS	ASC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47266	BAIBHAV RANJAN	INF	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47267	GEMSWIN JOHNSON	AVN	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47268	AJAY KUMAR	AOC	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47269	RAJAN SHARMA	ARTY	15 Mar 14	SSC-97 (NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)
LT TO BE CAPT

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47104	PAVNI DUBE	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47106	DANDEKAR MAITREYI RAJARAM	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47108	SUSHMITA GAUR	AVN	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47113	NEHA SHRIVASTAVA	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47114	PEARL FIONA FERNANDES	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47126	KOMAL RATHORE	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47127	MRINALI SHRIVASTAVA	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47128	CHANDER PRABHA	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47131	NUPUR SHEKHAWAT	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47132	KANIKA KUKRETY	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47137	RACHANABA VIKRAMSINH JADEJA	AAD	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47139	ANU JHAJHARIA	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47140	JYOTI YADAV	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47141	R D SNEHA	JAG	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47144	PRIYA SEMWAL	EME	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47146	JYOTI SAINI	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47150	SNEHA B SAPKAL	AAD	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47151	POOJA YADAV	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47154	SONIA KALIA	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47157	PATIL TEJASHRI JAYSING	EME	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47158	AISHWARYA SINGH	AAD	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16

47161	SHAKUL SINGH	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47180	RITIKA	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47190	ROSHNI KRISHNA	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47201	NIKITA THOMAS	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47220	MANPREET PANNU	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47221	GURSHEEN DHILLON	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47224	RICHA KUMAR	JAG	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47225	REETIKA GUPTA	INT	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47231	CHETNA RANI	ENGRS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47232	MANSI PANDEY	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47248	NISHA GAHLOT	INT	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47251	KARNIKA SINGH	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47252	RAVINA YUMNAM	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47253	MALINI NAIR	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47254	ANJANA SRIVASTAVA	SIGS	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47258	ANJALI GAMTA	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47259	PREETI SHARMA	JAG	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47261	ANSHULA VERMA	AOC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47262	TARUNA AERI	ASC	15 Mar 14	SSCW-11(NT)	15 Oct 14	15 Oct 16
47745	AKANKSHA ARORA	SIGS	15 Sep 13	SSCW-12 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47949	SONAM NIROULA	ENGRS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48324	SUSMITHA S VARIAR	ENGRS	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48333	SHALINI SINGH	EME	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48339	PRACHI SHUKLA	SIGS	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48342	BABLI PANNU	SIGS	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48354	SHAWETA KANWAR	SIGS	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48392	JOSHIKA ROY	ENGRS	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48404	POLISSETTY SUMA	EME	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48421	MADHURI SHARMA	EME	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16
48422	NEELAM KUMARI	ASC	14 Sep 14	SSCW-14 (T)	14 Oct 14	14 Oct 16

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
LT TO QUASI SUBSTANTIVE CAPT

SS No.	Name	Arm	Date of grant of quasi-Subs rank of Capt
42735	AMMAN MALAIKAN	INF	22 Sep 2016
42767	NIRAJ KUMAR LATH	INF	22 Sep 2016
42772	DIPANKAR MALLICK	INF	22 Sep 2016
42806	VIKRANT CHAUDHARY	INF	22 Sep 2016

42816	GAGANDEEP SINGH WAZIR	INF	22 Sep 2016
42825	RUPAM TALUKDAR	INF	22 Sep 2016

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

CORRIGENDA

No. 48, dated 27th January 2017—The President is pleased to make the following promotions:—

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Oct 2008 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to be Maj” the following amendment is made in respect of IC-54208W B Rehman Hussain, ASC with regard to date of grant of substantive rank of Maj:-

For : 09 Dec 2006

Read : 16 Dec 2004

LT TO BE CAPT

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 13 Jul 2013 under the heading “Regular Army, Short Service Commission (Men)” and sub heading “Lt to be Capt” the following amendment is made:-

For : SS-43842 SUSHIL KHAJURIA, ASC

Capt w.e.f. 20 Oct 2012

Read : — BLANK —

MP SHARMA
Dy Dir
MS8C

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.4]

BANSHI

DHAR DUBEY

Digitally signed by
BANSHI DHAR DUBEY

Date: 2017.04.01 11:34:34
+05'30'